

CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : A**

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - I

PART - I

(आत्मनिष्ठ प्रश्न)

(Subjective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

समय : 2½ घण्टे]

[ पूर्णांक : 60 (भाग-I : 30, भाग-II : 30)

Time allowed : 2½ hours ]

[ Maximum Marks : 60 (Part-I : 30, Part-II : 30)

प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है : भाग-I (आत्मनिष्ठ) एवं भाग-II (वस्तुनिष्ठ)। परीक्षार्थी को दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न-पत्र का भाग-I परीक्षा आरम्भ होने पर पहले उत्तर-पुस्तिका के साथ दिया जाएगा तथा भाग-II के लिए आखिरी का एक घंटे का समय दिया जाएगा अर्थात् परीक्षा समाप्त होने से एक घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग-II का प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

भाग-I के प्रश्न-पत्र में कुल 19 (5 + 7 + 7) प्रश्न एवं भाग-II के प्रश्न-पत्र में कुल 44 (16 + 14 + 14) प्रश्न हैं।

Question paper is divided into two Parts : Part-I (Subjective type) and Part-II (Objective type). Answer the questions of both parts in your answer-book. Part-I of question paper with answer-book will be provided with starting of Examination and last one hour of Examination will be given for Part-II i.e. question paper of Part-II will be provided before one hour of the end of Examination.

Total questions in question paper of Part-I are 19 (5 + 7 + 7) and of Part-II are 44 (16 + 14 + 14).

- कृपया जाँच कर लें कि भाग-I के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 19 (5 + 7 + 7) हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-I** are 8 in number and it contains 19 (5 + 7 + 7) questions.

5608/(Set : A)/ I

P. T. O.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।  
The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।  
Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/ पन्ने न छोड़ें।  
Don't leave blank page/pages in your answer-book.
- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।  
Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.
- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write their Roll Number on the question paper.
- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

#### सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग - स : कम्प्यूटरकृत लेखांकन।
- (ii) भाग - अ अनिवार्य है। परीक्षार्थी अपनी इच्छा से भाग - ब तथा भाग - स में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या 5 में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part – A** : Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.  
**Part – B** : Company Accounts & Analysis of Financial Statements.  
**Part – C** : Computerized Accounting.
- (ii) **Part – A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part – B** and **Part – C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- (iv) Internal choice is available in Question No. 5.

भाग – अ

PART – A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit Organizations &amp; Partnership Accounts)

1. स्पोर्ट्स क्लब ने वर्ष 2011-12 में 80,000 रु० चन्दे के प्राप्त किए। अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :
- (i) 1-4-2011 को बकाया चन्दा 5,200 रु०  
(ii) 1-4-2011 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 2,400 रु०  
(iii) 31-3-2012 को बकाया चन्दा 4,800 रु०  
(iv) 31-3-2012 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 700 रु०
- आय-व्यय खाते में चन्दे की कितनी राशि क्रेडिट की जायेगी ? 2
- Sports Club had received ₹ 80,000 as subscription in 2011-12. Further information is :
- (i) Subscription due but not received on 1-4-2011 ₹ 5,200.  
(ii) Subscription received in advance on 1-4-2011 ₹ 2,400.  
(iii) Subscription due but not received on 31-3-2012 ₹ 4,800.  
(iv) Subscription received in advance on 31-3-2012 ₹ 700.
- What amount should be credited to Income and Expenditure Account as subscription ?
2. प्राप्ति व भुगतान खाते व आय व व्यय खाते में कोई **चार** अंतर लिखिए। 2
- Give any **four** points of distinction between Receipts and Payment Account and Income and Expenditure Account.

3. 1-4-2018 को एक फर्म की सम्पत्तियाँ 75,000 रु० थी जिसमें 5,000 रु० रोकड़ के शामिल हैं। साझेदारों के पूँजी खाते का शेष 60,000 रु० है और बाकी रिजर्व का गठन किया गया है। आय की सामान्य दर 10% है। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के सुपर लाभ के आधार पर 24,000 रु० मूल्यांकित की गई। फर्म का औसत लाभ क्या होगा ? 2

On 1-4-2018 firm had assets of ₹ 75,000 including cash ₹ 5,000. The partners Capital Account showed a balance of ₹ 60,000 and reserve constituted the rest. Normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at ₹ 24,000 at 4 years purchase of superprofits, find the average profits of the firm.

4. 'स्थायी पूँजी' व 'चालू पूँजी' खातों में अंतर बताइए। 2  
Distinguish between 'Fixed Capital' and 'Fluctuating Capital' Accounts.

5. 'अ' व 'ब' साझेदार लाभ को 3 : 1 में बाँटते हैं जिनका स्थिति विवरण 31-3-18 को निम्न प्रकार था :

दायित्व	रु०	परिसम्पत्ति	रु०
लेनदार	4,15,000	बैंक में नकद	2,65,000
रिजर्व फण्ड	40,000	प्राप्य बिल	30,000
पूँजी खाता :		देनदार	1,60,000
'अ'	3,00,000	स्टॉक	2,00,000
'ब'	1,60,000	फिक्सचर्स	10,000
		भूमि एवं भवन	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

1 अप्रैल, 2018 को 'स' को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया गया :

- (a) 'स' ने ₹ 1,00,000 पूँजी व ₹ 50,000 ख्याति के रूप में भुगतान किया, जिसमें से ख्याति का 1/2 भाग 'अ' व 'ब' द्वारा निकाल लिया गया है ।  
(b) स्टॉक व फिक्सचर को 10% से कम किया गया व 5% प्रावधान डूबत ऋण के लिए देनदार व प्राप्य बिलों पर बनाया गया।  
(c) भूमि व भवन 20% से बढ़ गया है।  
(d) ₹ 10,000 का एक दायित्व है जोकि क्षति के भुगतान के लिए किया गया।  
(e) ₹ 6,500 की एक मद जोकि लेनदारों में शामिल है। वह नहीं माँगी जाएगी और उसको खारिज किया गया।

आवश्यक खाते बनाइए व स्थिति विवरण बनाइए।

6

'A' and 'B' share profits in 3 : 1. Their Balance Sheet as at March 31, 2018 was as follows :

<b>Liabilities</b>	<b>Rs.</b>	<b>Assets</b>	<b>Rs.</b>
Creditors	4,15,000	Cash at Bank	2,65,000
Reserve Fund	40,000	Bills Receivable	30,000
Capital Account :		Debtors	1,60,000
'A'	3,00,000	Stock	2,00,000
'B'	1,60,000	Fixtures	10,000
		Land and Building	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

On April 1, 2018 'C' was admitted into partnership for 1/4 share on the following terms :

- 'C' pays ₹ 1,00,000 as his capital and ₹ 50,000 for Goodwill. Half of which is to be withdrawn by 'A' and 'B'.
- Stock and Fixture be reduced by 10% and 5% provision for doubtful debts be created on Debtors and Bill Receivable.
- Value of land and building be increased by 20%.
- A liability to the extent of ₹ 10,000 should be created as a claim for damages.
- An item of ₹ 6,500 included in creditors is not likely to be claimed and should be written back.

Prepare necessary Accounts and prepare Balance Sheet.

अथवा

OR

साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है ?  
काल्पनिक मर्दों की सहायता से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। 6

Why are assets and liabilities revalued at the time of retirement of a Partner ?  
Prepare Revaluation Account with the help of an example by taking imaginary figures.

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts &amp; Analysis of Financial Statements)

6. 'A' लि० कम्पनी ने 'B' लि० कम्पनी से ₹ 5,40,000 की सम्पत्ति का क्रय किया। 'A' लि० ने 10% ऋणपत्र ₹ 100 प्रति ऋणपत्र का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2  
'A' Ltd. Co. purchased assets from 'B' Ltd. Co. for ₹ 5,40,000. 'A' Ltd. issued 10% debenture of ₹ 100 each at 20% premium. Pass journal entries.
7. 'B' लि० ने 635, 9% ऋणपत्र ₹ 500 प्रति ऋणपत्र से निर्गमित किए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि ऋणपत्रों का निर्गमन 5% छूट पर, और शोधन 10% प्रीमियम पर किया हो। 2  
'B' Ltd. issued 635, 9% debentures of ₹ 500 each. Pass necessary journal entries if debentures were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium.
8. 'संचित पूँजी' व 'पूँजीगत संचय' में क्या अंतर है ? 2  
State the differences between 'Reserve Capital' and 'Capital Reserve'.
9. अंशों के हरण करने की जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया हो : (i) प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया, (ii) प्रीमियम प्राप्त किया गया। 2  
Write journal entries of Share Forfeiture when the shares have been issued at premium and when the amount of premium : (i) not received, (ii) received.

10. किंग लि० ने क्वीन लि० की सम्पत्तियाँ ₹ 25,00,000 और दायित्व ₹ 6,00,000 के लिए क्रय प्रतिफल के रूप में 10,000 समता अंश ₹ 100 प्रति अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। और ₹ 11,00,000 बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किए गए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

King Ltd. took over assets of ₹ 25,00,000 and liabilities of ₹ 6,00,000 of Queen Ltd. King Ltd. paid the purchase consideration by issuing 10,000 Equity Shares of ₹ 100 each at a premium of 10% and ₹ 11,00,000 by Bank Draft. Pass journal entries.

11. 'निजी कम्पनी' व 'सार्वजनिक कम्पनी' में क्या अंतर है ? 2

What is the difference between 'Private Company' and 'Public Company' ?

12. (a) 'Y' लि० ने 300 अंश ₹ 10 प्रति अंश, मँगाए गए ₹ 7 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 2 के भुगतान न होने पर कर लिया। इनमें से 100 अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 6 प्रति अंश में कर दिया गया।

पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

- (b) 'Z' लि० ने 600 अंशों ₹ 10 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 3 प्रति अंश का भुगतान न कर पाने के कारण किया, दूसरी याचना ₹ 2 प्रति अंश अभी नहीं मँगाई गई थी। इनमें से 200 अंश ₹ 8 प्रति अंश पूर्णदत्त को ₹ 7 प्रति अंश में पुनः निर्गमित कर दिया गया।

पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

- (a) 'Y' Ltd. forfeited 300 shares of ₹ 10 each, ₹ 7 called up, for non-payment of Ist call of ₹ 2 per share. Out of these, 100 shares were immediately re-issued at ₹ 6 per share.

Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.

- (b) Z Ltd. forfeited 600 shares of ₹ 10 each on which Ist call of ₹ 3 per share was not received, the IInd call of ₹ 2 per share has not yet been called. Out of these, 200 shares were reissued as ₹ 8 paid up for ₹ 7 per share.

Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.

( 8 )

5608/(Set : A)

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

6. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? 2  
What do you mean by Computerized Accounting ?
7. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की **दो** विशेषताएँ बताइए। 2  
Write **two** features of Computerized Accounting System.
8. निदेशात्मक अखंडता क्या है ? 2  
What is Referential Integrity ?
9. GUI पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 2  
Write a short note on GUI (Graphical User Interface).
10. MS-Access के **दो** अवयव लिखें। 2  
Give **two** components of MS-Access.
11. स्प्रेडशीट की **दो** विशेषताएँ बताइए। 2  
Give **two** features of Electronic Spreadsheet.
12. क्वेरी क्या है ? क्वेरी बनाने की विभिन्न विधियाँ बताइए। 4  
What is Query ? Describe the various methods of creating Query.

5608/(Set : A)/ I



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : A**

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - II

PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- 
- कृपया जाँच कर लें कि **भाग-II** के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **16** तथा प्रश्न **44 (16 + 14 + 14)** हैं।  
*Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-II** are **16** in number and it contains **44 (16 + 14 + 14)** questions.*
  - परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*
  - कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***
- 

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :
- भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग - स : कम्प्यूटरिकृत लेखांकन।

5608/(Set : A)/ II

P. T. O.

- (ii) **भाग - अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग - ब** तथा **भाग - स** में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) **सभी प्रश्न हल करने हैं।** प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part - A :** Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.
- Part - B :** Company Accounts & Analysis of Financial Statements.
- Part - C :** Computerized Accounting.
- (ii) **Part - A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part - B** and **Part - C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Each question carries **1** mark. Write the **correct** answer in your answer-book.

**भाग - अ**

**PART - A**

**(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)**

**(Not for Profit Organizations & Partnership Accounts)**

1. आय व व्यय खाता दर्शाता है : 1
- (A) आधिक्य या कमी (B) नकदी
- (C) शुद्ध लाभ (D) पूँजी खाते
- Income and Expenditure Account reveals :
- (A) Surplus or Deficiency (B) Cash in Hand
- (C) Net Profit (D) Capital Account
2. साझेदारी संलेख के अभाव में पूँजी पर ब्याज की दर : 1
- (A) 5% प्रतिवर्ष (B) 6% प्रतिवर्ष
- (C) 12% प्रतिवर्ष (D) किसी ब्याज का प्रावधान नहीं
- In the absence of Partnership deed, the interest is allowed on Partner's Capital :
- (A) @ 5% p. a. (B) @ 6% p. a.
- (C) @ 12% p. a. (D) No interest is allowed

3. साझेदारी संलेख बनाना : 1
- (A) अनिवार्य है (B) लिखित में अनिवार्य है  
(C) अनिवार्य नहीं है (D) इनमें से कोई नहीं
- Forming a Partnership deed is :
- (A) Mandatory (B) Mandatory in writing  
(C) Not Mandatory (D) None of the above
4. पूँजी खातों पर ब्याज डेबिट किया जाएगा : 1
- (A) लाभ-हानि खाते में  
(B) लाभ-हानि नियोजन खाते में  
(C) साझेदार पूँजी खाते में  
(D) इनमें से कोई नहीं
- Interest on Partner's Capitals will be debited to :
- (A) Profit and Loss Account  
(B) Profit and Loss Appropriation Account  
(C) Partners Capital Account  
(D) None of the above
5. 'अ', 'ब' और 'स' लाभ को क्रमशः 3 : 2 : 1 के अनुपात में बाँटते थे। उन्होंने भविष्य में लाभों को 2 : 2 : 1 में बाँटने का निर्णय लिया। लाभ-हानि विभाजन अनुपात में बदलाव पर प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति व त्याग ज्ञात करें : 1
- (A) त्याग 'अ'  $\frac{3}{30}$ , प्राप्ति 'ब'  $\frac{2}{30}$ , प्राप्ति 'स'  $\frac{1}{30}$   
(B) प्राप्ति 'अ'  $\frac{2}{30}$ , प्राप्ति 'ब'  $\frac{1}{30}$ , त्याग 'स'  $\frac{3}{30}$   
(C) त्याग 'अ'  $\frac{3}{30}$ , प्राप्ति 'ब'  $\frac{1}{30}$ , प्राप्ति 'स'  $\frac{2}{30}$   
(D) प्राप्ति 'अ'  $\frac{1}{30}$ , प्राप्ति 'ब'  $\frac{1}{15}$ , त्याग 'स'  $\frac{1}{10}$

'A', 'B' and 'C' sharing profit and loss in the ratio of 3 : 2 : 1. The partners decide to share future profit and loss in the ratio of 2 : 2 : 1. Each Partner's gain or sacrifice due to change in ratio will be :

- (A) Sacrifice 'A'  $\frac{3}{30}$ , Gain 'B'  $\frac{2}{30}$ , Gain 'C'  $\frac{1}{30}$   
 (B) Gain 'A'  $\frac{2}{30}$ , Gain 'B'  $\frac{1}{30}$ , Sacrifice 'C'  $\frac{3}{30}$   
 (C) Sacrifice 'A'  $\frac{3}{30}$ , Gain 'B'  $\frac{1}{30}$ , Gain 'C'  $\frac{2}{30}$   
 (D) Gain 'A'  $\frac{1}{30}$ , Gain 'B'  $\frac{1}{15}$ , Sacrifice 'C'  $\frac{1}{10}$

6. ख्याति किस प्रकार की सम्पत्ति है ?

1

- (A) ख्याति एक काल्पनिक सम्पत्ति है (B) ख्याति एक चालू सम्पत्ति है  
 (C) ख्याति एक व्यर्थ आश्वासन है (D) ख्याति एक अमूर्त सम्पत्ति है

Goodwill is what type of assets ?

- (A) Goodwill is a fictitious assets (B) Goodwill is a current assets  
 (C) Goodwill is a wasting assets (D) Goodwill is an intangible assets

7. त्याग अनुपात :

1

- (A) नया अनुपात – पुराना अनुपात (B) पुराना अनुपात – नया अनुपात  
 (C) पुराना अनुपात – लाभ प्राप्ति अनुपात (D) लाभ प्राप्ति अनुपात – पुराना अनुपात

Sacrificing ratio :

- (A) New Ratio – Old Ratio (B) Old Ratio – New Ratio  
 (C) Old Ratio – Gaining Ratio (D) Gaining Ratio – Old Ratio

8. यदि नया साझेदार ख्याति नकदी में लाता है, तो वह पुराने साझेदारों को दिया जाएगा : 1
- (A) त्याग-अनुपात में (B) पुराना लाभ विभाजन अनुपात में  
(C) नया लाभ विभाजन अनुपात में (D) पूँजी अनुपात में

If the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in :

- (A) Ratio of sacrifice (B) Old profit sharing ratio  
(C) New profit sharing ratio (D) In capital ratio
9. नया साझेदार को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है : 1
- (A) एक साझेदार की सहमति से  
(B) बहुमत साझेदारों की सहमति से  
(C) सभी पुराने साझेदारों की सहमति से  
(D) 2/3 पुराने साझेदारों की सहमति से

A new partner may be admitted into a partnership :

- (A) with the consent of any one partner  
(B) with the consent of majority of partners  
(C) with the consent of all old partners  
(D) with the consent of 2/3rd of old partners
10. साझेदार 'अ' व 'ब' लाभ को 2 : 1 में बाँटते हैं। 'स' को 1/3 भाग के लिए प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा ? 1
- (A) 2 : 1 : 1 (B) 3 : 1 : 2  
(C) 4 : 2 : 3 (D) 2 : 1 : 3

'A' and 'B' sharing profit in 2 : 1. They admit 'C' as a partner for 1/3 share. The new ratio will be :

- (A) 2 : 1 : 1 (B) 3 : 1 : 2  
(C) 4 : 2 : 3 (D) 2 : 1 : 3

11. पुनर्मूल्यांकन खाता है :

1

- (A) वास्तविक खाता (B) व्यक्तिगत खाता  
(C) नाममात्र खाता (D) सम्पत्ति खाता

Revaluation Account is a :

- (A) Real Account (B) Personal Account  
(C) Nominal Account (D) Asset Account

12. साझेदार की सेवा-निवृत्त के समय ख्याति को पूँजी खाते में क्रेडिट किया जाता है :

1

- (A) अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के (B) बचे हुए साझेदारों के  
(C) सभी साझेदारों के (D) इनमें से कोई नहीं

On retirement of a partner, goodwill will be credited to the Capital Account of :

- (A) Retiring Partners (B) Remaining Partners  
(C) All Partners (D) None of the above

13. 'अ', 'ब' व 'स' साझेदार लाभ को क्रमशः  $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{4}$  में बाँटते हैं। साझेदार 'ब' के अवकाश ग्रहण करने पर नया लाभ विभाजन अनुपात होगा :

1

- (A) 2 : 4 (B) 1 : 2  
(C) 2 : 1 (D)  $\frac{1}{4} : \frac{1}{2}$

'A', 'B' and 'C' are partners sharing profits in the ratio of  $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{4}$ . New ratio on the retirement of 'B' will be :

- (A) 2 : 4 (B) 1 : 2  
(C) 2 : 1 (D)  $\frac{1}{4} : \frac{1}{2}$

14. साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय संचय लाभ व हानि का लेखा किस प्रकार होगा ? 1

- (A) सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में क्रेडिट  
(B) साझेदारों के पूँजी खाते में डेबिट, पुराने अनुपात में  
(C) बचे हुए साझेदारों के पूँजी खाते में नए अनुपात में क्रेडिट  
(D) बचे हुए साझेदारों के प्राप्त अनुपात में पूँजी खाते में क्रेडिट

What treatment is made of accumulated profits and losses on the retirement of a partner ?

- (A) Credited to all partners capital account in old ratio  
(B) Debited to all partners capital account in old ratio  
(C) Credited to remaining partners capital account in new ratio  
(D) Credited to remaining partners capital account in gaining ratio

15. 'अ' और 'ब' साझेदार लाभ को क्रमशः 2 : 3 अनुपात में बाँटते हैं। 'स' को  $\frac{1}{5}$  भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया, जो कि 'अ' से अपना पूरा हिस्सा लेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए : 1

- (A) 1 : 3 : 3 (B) 3 : 1 : 1  
(C) 2 : 2 : 1 (D) 1 : 3 : 1

'A' and 'B' are partners sharing profits & losses in the ratio of 2 : 3. 'C' is admitted for  $\frac{1}{5}$  share which he gets its wholly from 'A'. The new profit sharing ratio after C's admission will be :

- (A) 1 : 3 : 3 (B) 3 : 1 : 1  
(C) 2 : 2 : 1 (D) 1 : 3 : 1

16. 'X' और 'Y' साझेदार लाभ को 3 : 2 में बाँटते थे। 'Z' के साझेदारी में प्रवेश पर त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए यदि नया लाभ विभाजन अनुपात 9 : 7 : 4 है : 1

(A) 3 : 1 (B) 3 : 2

(C) 1 : 3 (D) 9 : 7

'X' and 'Y' are partners sharing profits in the ratio of 3 : 2. 'Z' is admitted as a partner. Calculate sacrificing ratio if new profit sharing ratio is 9 : 7 : 4 :

(A) 3 : 1 (B) 3 : 2

(C) 1 : 3 (D) 9 : 7

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)

17. कम्पनी में सदस्यों का दायित्व होता है : 1

(A) सीमित (B) असीमित

(C) स्थायी (D) अस्थायी

The liability of members of a Company is :

(A) Limited (B) Unlimited

(C) Stable (D) Fluctuating

18. कम्पनी के असली मालिक कौन होते हैं ? 1

(A) सरकार (B) संचालक मंडल

(C) समता अंशधारी (D) ऋणपत्रधारी

Who are the real owners of a Company ?

(A) Government (B) Board of Directors

(C) Equity shareholders (D) Debentureholders

19. अंशधारी कम्पनी से क्या प्राप्त करते हैं ? 1

(A) ब्याज (B) कमीशन

(C) लाभ (D) लाभांश



Shareholders receive from the Company :

- (A) Interest (B) Commission  
(C) Profit (D) Dividend

20. संचित पूँजी किस पूँजी का भाग है ? 1

- (A) माँग की गई पूँजी का (B) भुगतान की गई पूँजी का  
(C) पूँजीगत संचय का (D) ना माँगाई गई पूँजी का

Reserve Capital is a part of :

- (A) Called up Capital (B) Paid up Capital  
(C) Capital Reserve (D) Uncalled Capital

21. जो कम्पनी की शुरुआत करते हैं, कहलाए जाते हैं : 1

- (A) अंशधारी (B) डायरेक्टर  
(C) प्रमोटर (D) लेखापरीक्षक

Persons who start a company are called :

- (A) Shareholders (B) Directors  
(C) Promoters (D) Auditors

22. टेबल F के अनुसार, कॉल के बकाया होने पर ब्याज की दर लगाई जाती है : 1

- (A) 6% प्रतिवर्ष (B) 10% प्रतिवर्ष  
(C) 5% प्रतिवर्ष (D) 12% प्रतिवर्ष

Interest on Calls in arrears is charged according to Table F at :

- (A) 6% p. a. (B) 10% p. a.  
(C) 5% p. a. (D) 12% p. a.

23. अग्रिम प्राप्ति पर कॉल की रकम : 1

- (A) अंशपूँजी में जोड़ी जाती है (B) अंशपूँजी से घटाई जाती है  
(C) सम्पत्ति पक्ष में दर्शायी जाती है (D) समता व दायित्व पक्ष में दर्शायी जाती है

Amount of Calls in Advance is :

- (A) Added to Share Capital
- (B) Deducted from Share Capital
- (C) Shown on the Assets side
- (D) Shown on the Equity & Liabilities side

24. शून्य कूपन बॉण्ड जारी किए जाते हैं :

1

- (A) शून्य ब्याज दर पर
- (B) पहले से निर्धारित दर पर
- (C) बिना निर्धारित दर पर
- (D) इनमें से कोई नहीं

Zero Coupon Bonds are issued :

- (A) at zero interest rate
- (B) with specified rate of interest
- (C) without specified rate of interest
- (D) None of these

25. कम्पनी के समापन पर ऋणपत्रों की राशि वापस की जाती है :

1

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| (A) सबसे पहले            | (B) सबके बाद में        |
| (C) समता अंशधारी से पहले | (D) समता अंशधारी के बाद |

On liquidation of company, principal amount of debentures is returned :

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (A) First of all          | (B) Last of all          |
| (C) Before Equity Capital | (D) After Equity Capital |

26. ऋणपत्रधारी हैं : 1

- (A) कम्पनी के मालिक (B) कम्पनी के ग्राहक  
(C) कम्पनी के लेनदार (D) कम्पनी के प्रमोटर

Debenture holders are :

- (A) Owners of the Company (B) Customers of the Company  
(C) Creditors of the Company (D) Promoters of the Company

27. ऋणपत्र सामान्यतः कम्पनी की ..... सम्पत्ति है। 1

- (A) सुरक्षित (B) असुरक्षित  
(C) आंशिक रूप से सुरक्षित (D) आधे सुरक्षित

Debentures are usually ..... a company assets.

- (A) Secured (B) Unsecured  
(C) Partly Secured (D) Half Secured

28. ऋणपत्र जारी किए जा सकते हैं : 1

- (A) नकदी के बदले  
(B) नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के बदले  
(C) सहायक प्रतिभूति के रूप में  
(D) इनमें से किसी के लिए भी

Debentures of a Company can be issued :

- (A) For Cash  
(B) For consideration other than cash  
(C) As a collateral security  
(D) Any of the above

29. अपने ऋणपत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है : 1

- (A) सामान्य संचय में (B) लाभ-हानि विवरण में  
(C) पूँजीगत संचय में (D) ऋणपत्र खाता में

Profit on cancellation of own debentures is transferred to :

- (A) General Reserve (B) Statement of Profit and Loss  
(C) Capital Reserve (D) Debentures Account

30. सभी ऋणपत्रों के शोधन के बाद 'ऋणपत्र शोधन संचय' का हस्तांतरण किस खाते में किया जाता है ? 1

- (A) पूँजी संचय खाते में (B) सामान्य संचय खाते में  
(C) सिंकिंग फण्ड खाते में (D) लाभ व हानि विवरण में

Where is 'Debenture Redemption Reserve' transferred after the redemption of all debentures ?

- (A) Capital Reserve Account (B) General Reserve Account  
(C) Sinking Fund Account (D) Statement of Profit and Loss

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

17. सॉफ्टवेयर ..... के लिए आसान होना चाहिए। 1

- (A) स्थापित करने (B) अनुकूलन  
(C) समझने में (D) इनमें से सभी

A software must be easy to .....

- (A) Install (B) Adapt  
(C) Understand (D) All of the above

18. टेलर मेड सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हैं ? 1

- (A) बने-बनाए सॉफ्टवेयर हैं (B) कम लागत के हैं  
(C) डाटा की उच्च सुरक्षा है (D) इनमें से कोई नहीं

What is the advantage of Tailor made Software ?

- (A) These are ready-made software (B) Low cost  
(C) High secrecy of data (D) None of the above

19. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की क्या विशेषताएँ हैं ?

1

- (A) डाटा को स्टोर करना  
(B) जल्दी रिपोर्ट तैयार करना  
(C) विभिन्न खातों का समूह  
(D) उपरोक्त सभी

What are the features of Computerized Accounting System ?

- (A) Storage of accounting data  
(B) Instantly produces different reports  
(C) Group of different accounts  
(D) All of the above

20. लेखांकन सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाने के लिए किन तत्त्वों पर ध्यान दिया जाता है ?

1

- (A) लचीलापन (B) अनुकूलता  
(C) प्रबंधन का विश्वास (D) (A) और (B) दोनों

What are the factors to be considered while using accounting software ?

- (A) Flexibility (B) Adaptability  
(C) Interest of Management (D) Both (A) and (B)

21. डाटा है :

1

- (A) सूचना (B) तथ्यों का समूह  
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

Data is :

- (A) Information (B) Collection of facts  
(C) Both (A) and (B) (D) None of these

22. प्रक्रमणित सूचना के स्रोत :

1

- (A) इनपुट (B) आउटपुट  
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

The result of processed information is :

- (A) Input (B) Output  
(C) Both (A) and (B) (D) None of these

23. क्वेरी बनाने की विधि है :

1

- (A) SQL विधि (B) JHL विधि  
(C) RST विधि (D) DBH विधि

The method to prepare a query is :

- (A) SQL method (B) JHL method  
(C) RST method (D) DBH method

24. इनमें से कौन-सी विधि का प्रयोग किश्त मूल्य से ब्याज की गणना करने के लिए किया जाता है ?

1

- (A) PPMT (B) IPMT  
(C) FAPM (D) इनमें से कोई नहीं

Which function will be used for calculating interest included in instalment of a loan ?

- (A) PPMT (B) IPMT  
(C) FAPM (D) None of these

25. A1, A2, A3 सेल के वैल्यू को जमा करने का सूत्र क्या है ? 1

- (A) Sum = (A1 + A2 + A3) (B) Sum (A1, A2, A3)  
 (C) = Sum (A1 : A3) (D) इनमें से कोई नहीं

What is the formula for adding the value of cell A1, A2, A3 ?

- (A) Sum = (A1 + A2 + A3) (B) Sum (A1, A2, A3)  
 (C) = Sum (A1 : A3) (D) None of these

26. हास निकालने के लिए कौन-सा कार्य किया जाता है ? 1

- (A) SLN (B) PRF  
 (C) DUD (D) LTF

Which function is used to calculate depreciation ?

- (A) SLN (B) PRF  
 (C) DUD (D) LTF

27. कौन-सा सूत्र गलत है ? 1

- (A) = (10 + 15) (B) = (B7 \* B1)  
 (C) (B7 + 14) (D) 14 + 15

Which formula is **incorrect** ?

- (A) = (10 + 15) (B) = (B7 \* B1)  
 (C) (B7 + 14) (D) 14 + 15

28. कौन-सा चिह्न पहले सेल व आखिरी सेल के व्याख्यान को अलग दिखाता है ? 1

- (A) कॉमा (B) सेमी-कोलन  
 (C) विराम (D) कोलन

Which symbol separates the cell addresses of the first cell and the last cell in the given range ?

- (A) Comma (B) Semi-colon  
 (C) Period (D) Colon

29. इस ऑप्शन के प्रयोग से सूत्र को भी कॉपी किया जा सकता है : 1

- (A) ऑटो सम द्वारा (B) फिल द्वारा  
(C) क्लियर द्वारा (D) सॉर्ट एण्ड फिल्टर द्वारा

Formula can also be copied using this option :

- (A) AutoSum (B) Fill  
(C) Clear (D) Sort and Filter

30. इनमें से कौन-सा क्षेत्र चार्ट का वास्तविक क्षेत्र है ? 1

- (A) चार्ट (B) प्लॉट  
(C) ग्रिडलाइन्स (D) लेजेंड

This area is the actual area of the chart :

- (A) Chart (B) Plot  
(C) Gridlines (D) Legend



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No.

SET : B

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - I

PART - I

(आत्मनिष्ठ प्रश्न)

(Subjective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

समय : 2½ घण्टे]

[ पूर्णांक : 60 (भाग-I : 30, भाग-II : 30)

Time allowed : 2½ hours ]

[ Maximum Marks : 60 (Part-I : 30, Part-II : 30)

प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है : भाग-I (आत्मनिष्ठ) एवं भाग-II (वस्तुनिष्ठ)। परीक्षार्थी को दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न-पत्र का भाग-I परीक्षा आरम्भ होने पर पहले उत्तर-पुस्तिका के साथ दिया जाएगा तथा भाग-II के लिए आखिरी का एक घंटे का समय दिया जाएगा अर्थात् परीक्षा समाप्त होने से एक घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग-II का प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

भाग-I के प्रश्न-पत्र में कुल 19 (5 + 7 + 7) प्रश्न एवं भाग-II के प्रश्न-पत्र में कुल 44 (16 + 14 + 14) प्रश्न हैं।

Question paper is divided into two Parts : Part-I (Subjective type) and Part-II (Objective type). Answer the questions of both parts in your answer-book. Part-I of question paper with answer-book will be provided with starting of Examination and last one hour of Examination will be given for Part-II i.e. question paper of Part-II will be provided before one hour of the end of Examination.

Total questions in question paper of Part-I are 19 (5 + 7 + 7) and of Part-II are 44 (16 + 14 + 14).

- कृपया जाँच कर लें कि भाग-I के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 19 (5 + 7 + 7) हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-I** are 8 in number and it contains 19 (5 + 7 + 7) questions.

5608/(Set : B)/ I

P. T. O.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।  
The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।  
Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/ पन्ने न छोड़ें।  
Don't leave blank page/pages in your answer-book.
- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।  
Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.
- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write their Roll Number on the question paper.
- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

#### सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग - स : कम्प्यूटरकृत लेखांकन।
- (ii) भाग - अ अनिवार्य है। परीक्षार्थी अपनी इच्छा से भाग - ब तथा भाग - स में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या 5 में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part – A** : Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.  
**Part – B** : Company Accounts & Analysis of Financial Statements.  
**Part – C** : Computerized Accounting.
- (ii) **Part – A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part – B** and **Part – C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- (iv) Internal choice is available in Question No. 5.

**भाग – अ****PART – A**

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

**(Not for Profit Organizations & Partnership Accounts)**

1. 'स्थायी पूँजी' व 'चालू पूँजी' खातों में अंतर बताइए। 2  
Distinguish between 'Fixed Capital' and 'Fluctuating Capital' Accounts.
2. 1-4-2018 को एक फर्म की सम्पत्तियाँ 75,000 रु० थी जिसमें 5,000 रु० रोकड़ के शामिल हैं। साझेदारों के पूँजी खाते का शेष 60,000 रु० है और बाकी रिजर्व का गठन किया गया है। आय की सामान्य दर 10% है। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के सुपर लाभ के आधार पर 24,000 रु० मूल्यांकित की गई। फर्म का औसत लाभ क्या होगा ? 2  
On 1-4-2018 firm had assets of ₹ 75,000 including cash ₹ 5,000. The partners Capital Account showed a balance of ₹ 60,000 and reserve constituted the rest. Normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at ₹ 24,000 at 4 years purchase of superprofits, find the average profits of the firm.
3. प्राप्ति व भुगतान खाते व आय व व्यय खाते में कोई **चार** अंतर लिखिए। 2  
Give any **four** points of distinction between Receipts and Payment Account and Income and Expenditure Account.
4. स्पोर्ट्स क्लब ने वर्ष 2011-12 में 80,000 रु० चन्दे के प्राप्त किए। अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :  
 (i) 1-4-2011 को बकाया चन्दा 5,200 रु०।  
 (ii) 1-4-2011 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 2,400 रु०।

(iii) 31-3-2012 को बकाया चन्दा 4,800 रु०।

(iv) 31-3-2012 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 700 रु०।

आय-व्यय खाते में चन्दे की कितनी राशि क्रेडिट की जायेगी ?

2

Sports Club had received ₹ 80,000 as subscription in 2011-12. Further information is :

(i) Subscription due but not received on 1-4-2011 ₹ 5,200.

(ii) Subscription received in advance on 1-4-2011 ₹ 2,400.

(iii) Subscription due but not received on 31-3-2012 ₹ 4,800.

(iv) Subscription received in advance on 31-3-2012 ₹ 700.

What amount should be credited to Income and Expenditure Account as subscription ?

5. 'अ' व 'ब' साझेदार लाभ को 3 : 1 में बाँटते हैं जिनका स्थिति विवरण 31-3-18 को निम्न प्रकार था :

दायित्व	रु०	परिसम्पत्ति	रु०
लेनदार	4,15,000	बैंक में नकद	2,65,000
रिजर्व फण्ड	40,000	प्राप्य बिल	30,000
पूँजी खाता :		देनदार	1,60,000
'अ'	3,00,000	स्टॉक	2,00,000
'ब'	1,60,000	फिक्सचर्स	10,000
		भूमि एवं भवन	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

1 अप्रैल, 2018 को 'स' को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया गया :

- 'स' ने ₹ 1,00,000 पूँजी व ₹ 50,000 ख्याति के रूप में भुगतान किया, जिसमें से ख्याति का 1/2 भाग 'अ' व 'ब' द्वारा निकाल लिया गया है।
- स्टॉक व फिक्सचर को 10% से कम किया गया व 5% प्रावधान डूबत ऋण के लिए देनदार व प्राप्य बिलों पर बनाया गया।
- भूमि व भवन 20% से बढ़ गया है।
- ₹ 10,000 का एक दायित्व है जोकि क्षति के भुगतान के लिए किया गया।
- ₹ 6,500 की एक मद जोकि लेनदारों में शामिल है। वह नहीं माँगी जाएगी और उसको खारिज किया गया।

आवश्यक खाते बनाइए व स्थिति विवरण बनाइए।

6

'A' and 'B' share profits in 3 : 1. Their Balance Sheet as at March 31, 2018 was as follows :

<b>Liabilities</b>	<b>Rs.</b>	<b>Assets</b>	<b>Rs.</b>
Creditors	4,15,000	Cash at Bank	2,65,000
Reserve Fund	40,000	Bills Receivable	30,000
Capital Account :		Debtors	1,60,000
'A'	3,00,000	Stock	2,00,000
'B'	1,60,000	Fixtures	10,000
		Land and Building	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

On April 1, 2018 'C' was admitted into partnership for 1/4 share on the following terms :

- 'C' pays ₹ 1,00,000 as his capital and ₹ 50,000 for Goodwill. Half of which is to be withdrawn by 'A' and 'B'.
- Stock and Fixture be reduced by 10% and 5% provision for doubtful debts be created on Debtors and Bill Receivable.
- Value of land and building be increased by 20%.
- A liability to the extent of ₹ 10,000 should be created as a claim for damages.
- An item of ₹ 6,500 included in creditors is not likely to be claimed and should be written back.

Prepare necessary Accounts and prepare Balance Sheet.

अथवा

OR

साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है ?  
काल्पनिक मदों की सहायता से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। 6

Why are assets and liabilities revalued at the time of retirement of a Partner ?  
Prepare Revaluation Account with the help of an example by taking imaginary figures.

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

**(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)**

6. किंग लि० ने क्वीन लि० की सम्पत्तियाँ ₹ 25,00,000 और दायित्व ₹ 6,00,000 के लिए क्रय प्रतिफल के रूप में 10,000 समता अंश ₹ 100 प्रति अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। और ₹ 11,00,000 बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किए गए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

King Ltd. took over assets of ₹ 25,00,000 and liabilities of ₹ 6,00,000 of Queen Ltd. King Ltd. paid the purchase consideration by issuing 10,000 Equity Shares of ₹ 100 each at a premium of 10% and ₹ 11,00,000 by Bank Draft. Pass journal entries.

7. 'निजी कम्पनी' व 'सार्वजनिक कम्पनी' में क्या अंतर है ? 2

What is the difference between 'Private Company' and 'Public Company' ?

8. 'A' लि० कम्पनी ने 'B' लि० कम्पनी से ₹ 5,40,000 की सम्पत्ति का क्रय किया। 'A' लि० ने 10% ऋणपत्र ₹ 100 प्रति ऋणपत्र का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

'A' Ltd. Co. purchased assets from 'B' Ltd. Co. for ₹ 5,40,000. 'A' Ltd. issued 10% debenture of ₹ 100 each at 20% premium. Pass journal entries.

9. 'B' लि० ने 635, 9% ऋणपत्र ₹ 500 प्रति ऋणपत्र से निर्गमित किए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि ऋणपत्रों का निर्गमन 5% छूट पर, और शोधन 10% प्रीमियम पर किया हो। 2  
 'B' Ltd. issued 635, 9% debentures of ₹ 500 each. Pass necessary journal entries if debentures were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium.
10. 'संचित पूँजी' व 'पूँजीगत संचय' में क्या अंतर है ? 2  
 State the differences between 'Reserve Capital' and 'Capital Reserve'.
11. अंशों के हरण करने की जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया हो : (i) प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया, (ii) प्रीमियम प्राप्त किया गया। 2  
 Write journal entries of Share Forfeiture when the shares have been issued at premium and when the amount of premium : (i) not received, (ii) received.
12. (a) 'Y' लि० ने 300 अंश ₹ 10 प्रति अंश मँगाए गए, ₹ 7 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 2 के भुगतान न होने पर कर लिया। इनमें से 100 अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 6 प्रति अंश में कर दिया गया।  
 पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2
- (b) 'Z' लि० ने 600 अंशों ₹ 10 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 3 प्रति अंश का भुगतान न कर पाने के कारण किया, दूसरी याचना ₹ 2 प्रति अंश अभी नहीं मँगाई गई थी। इनमें से 200 अंश ₹ 8 प्रति अंश पूर्णदत्त को ₹ 7 प्रति अंश में पुनः निर्गमित कर दिया गया।  
 पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2
- (a) 'Y' Ltd. forfeited 300 shares of ₹ 10 each, ₹ 7 called up, for non-payment of Ist call of ₹ 2 per share. Out of these, 100 shares were immediately re-issued at ₹ 6 per share.  
 Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.
- (b) Z Ltd. forfeited 600 shares of ₹ 10 on which Ist call of ₹ 3 per share was not received, the IInd call of ₹ 2 per share has not yet been called. Out of these, 200 shares were reissued as ₹ 8 paid up for ₹ 7 per share.  
 Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.

( 8 )

5608/(Set : B)

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

6. MS-Access के **दो** अवयव लिखें। 2  
Give **two** components of MS-Access.
7. स्प्रेडशीट की **दो** विशेषताएँ बताइए। 2  
Give **two** features of Electronic Spreadsheet.
8. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? 2  
What do you mean by Computerized Accounting ?
9. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की **दो** विशेषताएँ बताइए। 2  
Write **two** features of Computerized Accounting System.
10. निदेशात्मक अखंडता क्या है ? 2  
What is Referential Integrity ?
11. GUI पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 2  
Write a short note on GUI (Graphical User Interface).
12. क्वेरी क्या है ? क्वेरी बनाने की विभिन्न विधियाँ बताइए। 4  
What is Query ? Describe the various methods of creating Query.

5608/(Set : B)/ I



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : B**

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग – II

PART – II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- 
- कृपया जाँच कर लें कि **भाग-II** के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **16** तथा प्रश्न **44 (16 + 14 + 14)** हैं।  
*Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-II** are **16** in number and it contains **44 (16 + 14 + 14)** questions.*
  - परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*
  - कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***
- 

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग – अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग – ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग – स : कम्प्यूटरिकृत लेखांकन।

5608/(Set : B)/ II

P. T. O.

- (ii) **भाग - अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग - ब** तथा **भाग - स** में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) **सभी प्रश्न हल करने हैं।** प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part - A :** Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.
- Part - B :** Company Accounts & Analysis of Financial Statements.
- Part - C :** Computerized Accounting.
- (ii) **Part - A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part - B** and **Part - C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Each question carries **1** mark. Write the **correct** answer in your answer-book.

**भाग - अ**

**PART - A**

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit Organizations & Partnership Accounts)

1. आय-व्यय खाता प्रदर्शित करता है : 1
- (A) आधिक्य या कमी (B) नकद शेष
- (C) शुद्ध लाभ (D) पूँजी खाता
- Income and Expenditure Account reveals :
- (A) Surplus or Deficiency (B) Cash in Hand
- (C) Net Profit (D) Capital Account
2. प्राप्ति एवं भुगतान खाता है : 1
- (A) व्यक्तिगत खाता (B) वास्तविक खाता
- (C) नाममात्र खाता (D) वास्तविक एवं नाममात्र खाता दोनों
- Receipts and Payments Account is :
- (A) Personal Account (B) Real Account
- (C) Nominal Account (D) Real and Nominal Account Both

3. साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए ? 1

- (A) 2 (B) 7  
(C) 10 (D) 20

What should be the minimum number of persons to form partnership firm ?

- (A) 2 (B) 7  
(C) 10 (D) 20

4. साझेदारी संलेख को ..... भी कहा जाता है। 1

- (A) प्रविवरण  
(B) पार्षद अन्तर्नियम  
(C) साझेदारी के सिद्धान्त  
(D) साझेदारी के अन्तर्नियम

Partnership deed is also called :

- (A) Prospectus  
(B) Article of Association  
(C) Principles of Partnership  
(D) Articles of Partnership

5. लाभ प्राप्ति अनुपात : 1

- (A) नया अनुपात – त्याग अनुपात  
(B) पुराना अनुपात – त्याग अनुपात  
(C) नया अनुपात – पुराना अनुपात  
(D) पुराना अनुपात – नया अनुपात

Gaining Ratio :

- (A) New Ratio – Sacrificing Ratio  
(B) Old Ratio – Sacrificing Ratio  
(C) New Ratio – Old Ratio  
(D) Old Ratio – New Ratio

6. एक नए साझेदार के प्रवेश पर :

1

- (A) पुरानी फर्म का समापन हो जाता है
- (B) पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है
- (C) पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों का समापन हो जाता है
- (D) न तो साझेदारी और न ही फर्म का समापन होता है

On the admission of a new partner :

- (A) Old firm is dissolved
- (B) Old partnership is dissolved
- (C) Both old partnership and firm are dissolved
- (D) Neither partnership nor firm is dissolved

7. 'ए' तथा 'बी' 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। 'सी' को 1/4 हिस्सा देकर साझेदार बनाया गया जो अपने हिस्से का 3/4 'ए' से तथा 1/4 'बी' से प्राप्त करता है। नया अनुपात होगा :

1

- (A) 2 : 1 : 1
- (B) 23 : 13 : 12
- (C) 3 : 1 : 1
- (D) 13 : 23 : 12

'A' and 'B' share profits in the ratio of 2 : 1. 'C' is admitted with 1/4 share in profit. 'C' acquires 3/4 of his share from 'A' and 1/4 of his share from 'B'. The new ratio will be :

- (A) 2 : 1 : 1
- (B) 23 : 13 : 12
- (C) 3 : 1 : 1
- (D) 13 : 23 : 12

5608/(Set : B)/ II

8. यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है, तो उस राशि को डेबिट करेंगे : 1
- (A) ख्याति खाते में  
 (B) नये साझेदार के पूँजी खाते में  
 (C) रोकड़ खाते में  
 (D) पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में

When a new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to :

- (A) Goodwill A/c  
 (B) Capital A/c of new partner  
 (C) Cash A/c  
 (D) Capital A/c of old partners
9. किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी ? 1
- (A) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में  
 (B) शेष साझेदारों के पूँजी खातों में  
 (C) उसके उत्तराधिकारी के खाते में  
 (D) सरकार के आय खाते में

On the death of a partner, the amount due to him will be credited to :

- (A) All partner's Capital Accounts  
 (B) Remaining Partners Capital Accounts  
 (C) His Executor's Account  
 (D) Governments' Revenue Account

10. 'ए', 'बी' तथा 'सी' साझेदार हैं जो  $1/4 : 3/10 : 9/20$  के अनुपात में लाभ बाँटते हैं, 'सी' के अवकाश ग्रहण पर नया अनुपात होगा : 1

(A) 6 : 5

(B) 5 : 6

(C) 4 : 3

(D) 4 : 10

'A', 'B' and 'C' are partners sharing profits in the ratio of  $1/4 : 3/10 : 9/20$ . The new ratio on the retirement of 'C' will be :

(A) 6 : 5

(B) 5 : 6

(C) 4 : 3

(D) 4 : 10

11. साझेदारों के चालू खातों के शेष होते हैं : 1

(A) डेबिट शेष

(B) क्रेडिट शेष

(C) डेबिट अथवा क्रेडिट शेष

(D) न डेबिट न क्रेडिट शेष

Balance of partner's current accounts are :

(A) Debit Balance

(B) Credit Balance

(C) Debit or Credit Balance

(D) Neither Debit nor Credit balances

12. फर्म के लिए पूँजी पर ब्याज है : 1

(A) पूँजी भुगतान

(B) पूँजी प्राप्ति

(C) हानि

(D) आय

For the firm interest on capital is :

(A) Capital payment

(B) Capital Receipt

(C) Loss

(D) Income

13. 01-01-2019 को एक साझेदार ने फर्म को 1,00,000 ₹ का ऋण दिया। समझौते के अभाव में 31-03-2019 को उसके ऋण पर ब्याज होगा : 1

(A) ₹ शून्य (B) ₹ 1,500  
(C) ₹ 3,000 (D) ₹ 6,000

On 01-01-2019, a partner advanced a loan of ₹ 1,00,000 to the firm. In the absence of agreement, interest on loan on 31-03-2019 will be :

(A) ₹ NIL (B) ₹ 1,500  
(C) ₹ 3,000 (D) ₹ 6,000

14. यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है, तो आहरण की कुल राशि पर ..... माह का ब्याज लगाया जाता है। 1

(A) 6 (B) 6½  
(C) 5½ (D) 12

If a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month, interest on the total amount is charged for ..... months.

(A) 6 (B) 6½  
(C) 5½ (D) 12

15. 'ए' तथा 'बी' लाभ हानि को 3 : 5 में बाँटते हुए एक फर्म में साझेदार थे। 1 अप्रैल, 2019 से वे लाभ हानि को समान अनुपात में बाँटने पर सहमत हुए। लाभ-हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण, 'ए' का लाभ प्राप्ति अथवा त्याग का हिस्सा होगा : 1

(A) लाभ प्राप्ति  $\frac{3}{8}$  (B) लाभ प्राप्ति  $\frac{1}{8}$   
(C) त्याग  $\frac{3}{8}$  (D) त्याग  $\frac{1}{8}$

'A' and 'B' were partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 3 : 5. With effect from 1st April, 2019 they agreed to share profits or losses equally. Due to change in profit sharing ratio, A's gain or sacrifice be :

(A) Gain  $\frac{3}{8}$  (B) Gain  $\frac{1}{8}$   
(C) Sacrifice  $\frac{3}{8}$  (D) Sacrifice  $\frac{1}{8}$

16. ख्याति एक ..... सम्पत्ति है। 1

- (A) कृत्रिम (B) चालू  
(C) नाशवान (D) अमूर्त

Goodwill is a ..... asset.

- (A) Fictitious (B) Current  
(C) Wasting (D) Intangible

**भाग - ब**

**PART - B**

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

**(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)**

17. अंशधारी कम्पनी के ..... होते हैं। 1

- (A) ग्राहक (B) स्वामी  
(C) लेनदार (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Shareholders are the ..... of the company.

- (A) Customers (B) Owners  
(C) Creditors (D) None of these

18. एक कम्पनी के सदस्यों का दायित्व होता है : 1

- (A) सीमित (B) असीमित  
(C) स्थिर (D) परिवर्तनशील

The liability of members in a company :

- (A) Limited (B) Unlimited  
(C) Stable (D) Fluctuating



19. एक निजी कम्पनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है : 1

- (A) 7 (B) 200  
(C) 20 (D) कोई सीमा नहीं

Maximum number of members in a Private Company is :

- (A) 7 (B) 200  
(C) 20 (D) No limit

20. एक कम्पनी का पूर्वाधिकार अंश प्रतिनिधित्व करता है : 1

- (A) ऋण का (B) पूँजी का  
(C) लाभांश का (D) सम्पत्ति का

Preference share of a Company represents :

- (A) Loan (B) Capital  
(C) Dividend (D) Assets

21. पंजीकृत पूँजी निम्न का भाग होती है : 1

- (A) संचित पूँजी  
(B) निर्गमित पूँजी  
(C) प्रार्थित पूँजी  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Registered capital is the part of :

- (A) Reserve Capital  
(B) Issued Capital  
(C) Subscribed Capital  
(D) None of the above

- 22.** अंशों के प्रीमियम की अधिकतम सीमा होती है : 1
- (A) 5% (B) 10%  
 (C) कोई सीमा नहीं (D) 100%
- Maximum limit of premium on shares is :
- (A) 5% (B) 10%  
 (C) No limit (D) 100%
- 23.** ऋणपत्रधारी को मिलता है : 1
- (A) लाभांश (B) ब्याज  
 (C) लाभांश व ब्याज दोनों (D) बोनस
- Debentureholder receives :
- (A) Dividend (B) Interest  
 (C) Both Dividend and Interest (D) Bonus
- 24.** शून्य कूपन बॉण्ड निर्गमित किए जाते हैं : 1
- (A) शून्य ब्याज दर पर  
 (B) पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर  
 (C) बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Zero Coupon Bonds are issued :
- (A) At zero interest rate  
 (B) Specified rate of interest  
 (C) Without specified rate of interest  
 (D) None of the above

25. ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करने पर कौन-सा खाता क्रेडिट किया जाता है ? 1

- (A) ऋणपत्र खाता
- (B) बैंक ऋण खाता
- (C) ऋणपत्र धारित खाता
- (D) ऋणपत्र उचंत खाता

On issue of debentures as collateral security, which account is credited ?

- (A) Debenture Account
- (B) Bank Loan Account
- (C) Debenture Holding Account
- (D) Debenture Suspense Account

26. स्वयं के ऋणपत्रों को रद्द करने से लाभ को हस्तांतरित किया जाता है : 1

- (A) सामान्य संचय में
- (B) लाभ-हानि विवरण में
- (C) पूँजी संचय में
- (D) ऋणपत्रों के खाते में

Profit on cancellation of own debentures is transferred to :

- (A) General Reserve
- (B) Statement of Profit & Loss
- (C) Capital Reserve
- (D) Debenture Account

27. निक्षेप निधि निवेश खाते का संतुलन हमेशा दर्शाता है : 1

- (A) डेबिट शेष  
 (B) क्रेडिट शेष  
 (C) न ही डेबिट और न क्रेडिट शेष  
 (D) या तो डेबिट या क्रेडिट शेष

Balance of Sinking Fund Investment Account always shows :

- (A) Debit Balance  
 (B) Credit Balance  
 (C) Neither Debit nor Credit Balance  
 (D) Either Debit or Credit Balance

28. ऋणपत्र निर्गमन हानि खाता है : 1

- (A) सम्पत्ति (B) दायित्व  
 (C) व्यय (D) आय

Loss on issue of Debentures is :

- (A) Asset (B) Liability  
 (C) Expenses (D) Income

29. निम्न में से किस पूँजी को स्थिति विवरण में 'अंश पूँजी' शीर्षक के अन्तर्गत नहीं दिखाया जाता है ? 1

- (A) प्रार्थित पूँजी (B) निर्गमित पूँजी  
 (C) आरक्षित पूँजी (D) अधिकृत पूँजी

Which of the following is not shown under the heading 'Share Capital' in a Balance Sheet ?

- (A) Subscribed Capital (B) Issued Capital  
 (C) Reserve Capital (D) Authorised Capital

30. एक कम्पनी के चिट्ठे में 'अंश पूँजी' शीर्षक के अन्तर्गत सबसे अन्त में दर्शायी जाती है : 1
- (A) अधिकृत पूँजी (B) प्रार्थित अंश पूँजी  
(C) निर्गमित अंश पूँजी (D) आरक्षित अंश पूँजी

In the Balance Sheet of a company, under the heading 'Share Capital' at the last is shown :

- (A) Authorised Capital (B) Subscribed Share Capital  
(C) Issued Share Capital (D) Reserve Share Capital

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

17. निम्नलिखित विधियों में से एक सेल में डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है : 1
- (A) एक तीर कुंजी दबाना (B) टैब को दबाना  
(C) Esc कुंजी दबाना (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following methods cannot be used to enter data in a cell ?

- (A) Pressing an arrow key (B) Pressing the Tab key  
(C) Pressing the Esc key (D) None of the above

18. वर्कशीट बनाने के निम्नलिखित में से कौन-सा एक बुनियादी कदम नहीं है ? 1
- (A) वर्कबुक सेव करें (B) वर्कशीट को संशोधित करें  
(C) टेक्स्ट और डेटा डालें (D) वर्कशीट कॉपी करें

Which of the following is not a basic step in creating a worksheet ?

- (A) Save workbook (B) Modify the worksheet  
(C) Enter text and data (D) Copy the worksheet

19. सेलों में रखी गई टिप्पणियों को कहते हैं : 1
- (A) स्मार्ट टिप (B) सेल टिप  
(C) वेब टिप (D) नरम टिप
- Comments put in cells are called :
- (A) Smart tip (B) Cell tip  
(C) Web tip (D) Soft tip
20. एक सूत्र का उपयोग करके एकाधिक गणना की जा सकती है : 1
- (A) मानक सूत्र (B) सरणी सूत्र  
(C) स्मार्ट सूत्र (D) जटिल सूत्र
- Multiple calculations can be made in a single formula using :
- (A) Standard formula (B) Array formula  
(C) Smart formula (D) Complex formula
21. हाइपरलिंक कर सकते हैं : 1
- (A) पाठ (B) ड्राइंग वस्तुएँ  
(C) चित्र (D) उपरोक्त सभी
- Hyperlinks can be :
- (A) Text (B) Drawing objects  
(C) Pictures (D) All of the above
22. रिलेशनल डेटा बेस मॉडल E. F. Codd द्वारा बनाया गया था। सत्य/असत्य 1
- The relational database model was created by E. F. Codd. True/False
23. डेटाबेस में, डेटा स्प्रेडशीट में संग्रहित किया जाता है, जिसमें पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं। सत्य/असत्य 1
- In a database, data is stored in Spreadsheets which have rows & columns. True/False
24. एक डेटाबेस में डेटा और रिश्ते होते हैं। सत्य/असत्य 1
- A database has data and relationships. True/False

25. एक डेटाबेस को 'स्व-वर्णन' कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं का विवरण होता है। सत्य/असत्य 1  
A database is called "Self-describing" because it contains a description of itself. True/False
26. अकाउंटिंग पैकेज किस आधार पर विकसित किये जाते हैं ? 1  
(A) लेखा अवधारणा (B) लेखा परिपाटियाँ  
(C) दोनों (A) और (B) (D) कोई भी नहीं  
Accounting packages are developed on the basis of :  
(A) Accounting Concept (B) Accounting Conventions  
(C) Both (A) and (B) (D) None of the above
27. अकाउंटिंग पैकेज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ? 1  
(A) सिस्टम सॉफ्टवेयर (B) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर  
(C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (D) बेसिक  
What type of Software is an accounting package ?  
(A) System Software (B) Application Software  
(C) Utility Software (D) Basic
28. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के घटक हैं : 1  
(A) डेटा, रिपोर्ट, खाता बही, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर  
(B) सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लोग, प्रक्रिया  
(C) डेटा, कोडिंग, प्रक्रिया, उद्देश्य, आउटपुट  
(D) लोग, प्रक्रिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर  
The components of computerized accounting system are :  
(A) Data, Report, Ledger, Software, Hardware  
(B) Software, Hardware, People, Procedure  
(C) Data, Coding, Procedure, Objective, Output  
(D) People, Procedure, Hardware, Software

29. खातों का समूहन से तात्पर्य डेटा के वर्गीकरण से है : 1

- (A) सम्पत्तियाँ, पूँजी और देनदारियाँ
- (B) पूँजी, सम्पत्तियाँ, देनदारियाँ, आय और व्यय
- (C) सम्पत्तियाँ, इक्विटी, आय और व्यय
- (D) पूँजी, देनदारियाँ, आय और व्यय

Grouping of Accounts means the classification of data from :

- (A) Assets, Capital and Liabilities
- (B) Assets, Capital, Liabilities, Revenue & Expenses
- (C) Assets, Equity, Revenue & Expenses
- (D) Capital, Liabilities, Revenues & Expenses

30. विषम को चुनें : 1

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| (A) पासवर्ड सिक्योरिटी | (B) डेटा ऑडिट  |
| (C) डेटा बैंक          | (D) डेटा वॉल्ट |

Choose the odd one out :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| (A) Password Security | (B) Data Audit |
| (C) Data Bank         | (D) Data Vault |



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No.

SET : C

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - I

PART - I

(आत्मनिष्ठ प्रश्न)

(Subjective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

समय : 2½ घण्टे]

[ पूर्णांक : 60 (भाग-I : 30, भाग-II : 30)

Time allowed : 2½ hours ]

[ Maximum Marks : 60 (Part-I : 30, Part-II : 30)

प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है : भाग-I (आत्मनिष्ठ) एवं भाग-II (वस्तुनिष्ठ)। परीक्षार्थी को दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न-पत्र का भाग-I परीक्षा आरम्भ होने पर पहले उत्तर-पुस्तिका के साथ दिया जाएगा तथा भाग-II के लिए आखिरी का एक घंटे का समय दिया जाएगा अर्थात् परीक्षा समाप्त होने से एक घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग-II का प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

भाग-I के प्रश्न-पत्र में कुल 19 (5 + 7 + 7) प्रश्न एवं भाग-II के प्रश्न-पत्र में कुल 44 (16 + 14 + 14) प्रश्न हैं।

Question paper is divided into two Parts : Part-I (Subjective type) and Part-II (Objective type). Answer the questions of both parts in your answer-book. Part-I of question paper with answer-book will be provided with starting of Examination and last one hour of Examination will be given for Part-II i.e. question paper of Part-II will be provided before one hour of the end of Examination.

Total questions in question paper of Part-I are 19 (5 + 7 + 7) and of Part-II are 44 (16 + 14 + 14).

• कृपया जाँच कर लें कि भाग-I के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 19 (5 + 7 + 7) हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-I** are 8 in number and it contains 19 (5 + 7 + 7) questions.

5608/(Set : C)/ I

P. T. O.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।  
The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।  
Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/ पन्ने न छोड़ें।  
Don't leave blank page/pages in your answer-book.
- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।  
Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.
- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write their Roll Number on the question paper.
- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

#### सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग - स : कम्प्यूटरकृत लेखांकन।
- (ii) भाग - अ अनिवार्य है। परीक्षार्थी अपनी इच्छा से भाग - ब तथा भाग - स में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या 5 में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part – A :** Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.  
**Part – B :** Company Accounts & Analysis of Financial Statements.  
**Part – C :** Computerized Accounting.
- (ii) **Part – A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part – B** and **Part – C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- (iv) Internal choice is available in Question No. 5.

भाग – अ

PART – A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit Organizations &amp; Partnership Accounts)

1. 1-4-2018 को एक फर्म की सम्पत्तियाँ 75,000 रु० थी जिसमें 5,000 रु० रोकड़ के शामिल हैं। साझेदारों के पूँजी खाते का शेष 60,000 रु० है और बाकी रिजर्व का गठन किया गया है। आय की सामान्य दर 10% है। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के सुपर लाभ के आधार पर 24,000 रु० मूल्यांकित की गई। फर्म का औसत लाभ क्या होगा ? 2
- On 1-4-2018 firm had assets of ₹ 75,000 including cash ₹ 5,000. The partners Capital Account showed a balance of ₹ 60,000 and reserve constituted the rest. Normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at ₹ 24,000 at 4 years purchase of superprofits, find the average profits of the firm.
2. 'स्थायी पूँजी' व 'चालू पूँजी' खातों में अंतर बताइए। 2
- Distinguish between 'Fixed Capital' and 'Fluctuating Capital' Accounts.
3. स्पोर्ट्स क्लब ने वर्ष 2011-12 में 80,000 रु० चन्दे के प्राप्त किए। अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :
- (i) 1-4-2011 को बकाया चन्दा 5,200 रु०।  
(ii) 1-4-2011 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 2,400 रु०।  
(iii) 31-3-2012 को बकाया चन्दा 4,800 रु०।  
(iv) 31-3-2012 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 700 रु०।
- आय-व्यय खाते में चन्दे की कितनी राशि क्रेडिट की जायेगी ? 2

Sports Club had received ₹ 80,000 as subscription in 2011-12. Further information is :

- (i) Subscription due but not received on 1-4-2011 ₹ 5,200.
- (ii) Subscription received in advance on 1-4-2011 ₹ 2,400.
- (iii) Subscription due but not received on 31-3-2012 ₹ 4,800.
- (iv) Subscription received in advance on 31-3-2012 ₹ 700.

What amount should be credited to Income and Expenditure Account as subscription ?

4. प्राप्ति व भुगतान खाते व आय व व्यय खाते में कोई चार अंतर लिखिए। 2  
Give any **four** points of distinction between Receipts and Payment Account and Income and Expenditure Account.
5. 'अ' व 'ब' साझेदार लाभ को 3 : 1 में बाँटते हैं जिनका स्थिति विवरण 31-3-18 को निम्न प्रकार था :

दायित्व	₹	परिसम्पत्ति	₹
लेनदार	4,15,000	बैंक में नकद	2,65,000
रिजर्व फण्ड	40,000	प्राप्य बिल	30,000
पूँजी खाता :		देनदार	1,60,000
'अ'	3,00,000	स्टॉक	2,00,000
'ब'	1,60,000	फिक्सचर्स	10,000
		भूमि एवं भवन	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

1 अप्रैल, 2018 को 'स' को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया गया :

- (a) 'स' ने ₹ 1,00,000 पूँजी व ₹ 50,000 ख्याति के रूप में भुगतान किया, जिसमें से ख्याति का 1/2 भाग 'अ' व 'ब' द्वारा निकाल लिया गया है।
- (b) स्टॉक व फिक्सचर को 10% से कम किया गया व 5% प्रावधान डूबत ऋण के लिए देनदार व प्राप्य बिलों पर बनाया गया।
- (c) भूमि व भवन 20% से बढ़ गया है।
- (d) ₹ 10,000 का एक दायित्व है जोकि क्षति के भुगतान के लिए किया गया।
- (e) ₹ 6,500 की एक मद जोकि लेनदारों में शामिल है। वह नहीं माँगी जाएगी और उसको खारिज किया गया।

आवश्यक खाते बनाइए व स्थिति विवरण बनाइए।

'A' and 'B' share profits in 3 : 1. Their Balance Sheet as at March 31, 2018 was as follows :

<b>Liabilities</b>	<b>Rs.</b>	<b>Assets</b>	<b>Rs.</b>
Creditors	4,15,000	Cash at Bank	2,65,000
Reserve Fund	40,000	Bills Receivable	30,000
Capital Account :		Debtors	1,60,000
'A'	3,00,000	Stock	2,00,000
'B'	1,60,000	Fixtures	10,000
		Land and Building	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

On April 1, 2018 'C' was admitted into partnership for 1/4 share on the following terms :

- 'C' pays ₹ 1,00,000 as his capital and ₹ 50,000 for Goodwill. Half of which is to be withdrawn by 'A' and 'B'.
- Stock and Fixture be reduced by 10% and 5% provision for doubtful debts be created on Debtors and Bill Receivable.
- Value of land and building be increased by 20%.
- A liability to the extent of ₹ 10,000 should be created as a claim for damages.
- An item of ₹ 6,500 included in creditors is not likely to be claimed and should be written back.

Prepare necessary Accounts and prepare Balance Sheet.

अथवा

OR

साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है ?  
काल्पनिक मदों की सहायता से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। 6

Why are assets and liabilities revalued at the time of retirement of a Partner ?  
Prepare Revaluation Account with the help of an example by taking imaginary figures.

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts &amp; Analysis of Financial Statements)

6. 'संचित पूँजी' व 'पूँजीगत संचय' में क्या अंतर है ? 2

State the differences between 'Reserve Capital' and 'Capital Reserve'.

7. अंशों के हरण करने की जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया हो : (i) प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया, (ii) प्रीमियम प्राप्त किया गया। 2

Write journal entries of Share Forfeiture when the shares have been issued at premium and when the amount of premium : (i) not received, (ii) received.

8. किंग लि० ने क्वीन लि० की सम्पत्तियाँ ₹ 25,00,000 और दायित्व ₹ 6,00,000 के लिए क्रय प्रतिफल के रूप में 10,000 समता अंश ₹ 100 प्रति अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। और ₹ 11,00,000 बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किए गए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

King Ltd. took over assets of ₹ 25,00,000 and liabilities of ₹ 6,00,000 of Queen Ltd. King Ltd. paid the purchase consideration by issuing 10,000 Equity Shares of ₹ 100 each at a premium of 10% and ₹ 11,00,000 by Bank Draft. Pass journal entries.

9. 'निजी कम्पनी' व 'सार्वजनिक कम्पनी' में क्या अंतर है ? 2

What is the difference between 'Private Company' and 'Public Company' ?

10. 'A' लि० कम्पनी ने 'B' लि० कम्पनी से ₹ 5,40,000 की सम्पत्ति का क्रय किया। 'A' लि० ने 10% ऋणपत्र ₹ 100 प्रति ऋणपत्र का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

'A' Ltd. Co. purchased assets from 'B' Ltd. Co. for ₹ 5,40,000. 'A' Ltd. issued 10% debenture of ₹ 100 each at 20% premium. Pass journal entries.

11. 'B' लि० ने 635, 9% ऋणपत्र ₹ 500 प्रति ऋणपत्र से निर्गमित किए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि ऋणपत्रों का निर्गमन 5% छूट पर, और शोधन 10% प्रीमियम पर किया हो। 2

'B' Ltd. issued 635, 9% debentures of ₹ 500 each. Pass necessary journal entries if debentures were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium.

12. (a) 'Y' लि० ने 300 अंश ₹ 10 प्रति अंश मँगाए गए, ₹ 7 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 2 के भुगतान न होने पर कर लिया। इनमें से 100 अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 6 प्रति अंश में कर दिया गया।

पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

- (b) 'Z' लि० ने 600 अंशों ₹ 10 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 3 प्रति अंश का भुगतान न कर पाने के कारण किया, दूसरी याचना ₹ 2 प्रति अंश अभी नहीं मंगाई गई थी। इनमें से 200 अंश ₹ 8 प्रति अंश पूर्णदत्त को ₹ 7 प्रति अंश में पुनः निर्गमित कर दिया गया।

पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

- (a) 'Y' Ltd. forfeited 300 shares of ₹ 10 each, ₹ 7 called up, for non-payment of Ist call of ₹ 2 per share. Out of these, 100 shares were immediately re-issued at ₹ 6 per share.

Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.

- (b) Z Ltd. forfeited 600 shares of ₹ 10 on which Ist call of ₹ 3 per share was not received, the IInd call of ₹ 2 per share has not yet been called. Out of these, 200 shares were reissued as ₹ 8 paid up for ₹ 7 per share.

Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.

( 8 )

5608/(Set : C)

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

6. निदेशात्मक अखंडता क्या है ? 2  
What is Referential Integrity ?
7. GUI पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 2  
Write a short note on GUI (Graphical User Interface).
8. MS-Access के दो अवयव लिखें। 2  
Give **two** components of MS-Access.
9. स्प्रेडशीट की दो विशेषताएँ बताइए। 2  
Give **two** features of Electronic Spreadsheet.
10. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? 2  
What do you mean by Computerized Accounting ?
11. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की दो विशेषताएँ बताइए। 2  
Write **two** features of Computerized Accounting System.
12. क्वेरी क्या है ? क्वेरी बनाने की विभिन्न विधियाँ बताइए। 4  
What is Query ? Describe the various methods of creating Query.

5608/(Set : C)/ I



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : C**

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग – II

PART – II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- 
- कृपया जाँच कर लें कि **भाग-II** के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **16** तथा प्रश्न **44 (16 + 14 + 14)** हैं।  
*Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-II** are **16** in number and it contains **44 (16 + 14 + 14)** questions.*
  - परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*
  - कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***
- 

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग – अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग – ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग – स : कम्प्यूटरिकृत लेखांकन।

5608/(Set : C)/ II

P. T. O.

- (ii) **भाग - अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग - ब** तथा **भाग - स** में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) **सभी प्रश्न हल करने हैं।** प्रत्येक प्रश्न **1 अंक का है। सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part - A :** Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.
- Part - B :** Company Accounts & Analysis of Financial Statements.
- Part - C :** Computerized Accounting.
- (ii) **Part - A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part - B** and **Part - C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Each question carries **1** mark. Write the **correct** answer in your answer-book.

**भाग - अ**

**PART - A**

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit Organizations & Partnership Accounts)

1. आय-व्यय खाते में लिखे जाते हैं ..... के लेनदेन। 1
- (A) केवल आयगत प्रकृति (B) केवल पूँजीगत प्रकृति
- (C) दोनों आयगत तथा पूँजीगत प्रकृति (D) कोई भी नहीं
- Income and Expenditure Account record transactions of :
- (A) Revenue nature only (B) Capital nature only
- (C) Both Revenue and Capital nature (D) None of these
2. लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की आय का साधन है : 1
- (A) सदस्यों से प्राप्त चन्दा (B) दान
- (C) प्रवेश शुल्क (D) उपरोक्त सभी
- Source of Income for a not-for-profit organization is :
- (A) Subscription from members (B) Donation
- (C) Entrance fees (D) All of the above

3. साझेदारों का दायित्व : 1
- (A) सीमित होता है (B) असीमित होता है  
(C) न्यायालय द्वारा निर्धारित होता है (D) साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है
- Liability of a Partner is :
- (A) Limited (B) Unlimited  
(C) Determined by Court (D) Determined by Partnership Act
4. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूँजी पर ब्याज दिया जाता है : 1
- (A) 5% प्रतिवर्ष (B) 6% प्रतिवर्ष  
(C) 12% प्रतिवर्ष (D) ब्याज नहीं दिया जाता
- In the absence of Partnership deed, the interest is allowed on Partner's Capital :
- (A) @ 5% p. a. (B) @ 6% p. a.  
(C) @ 12% p. a. (D) No interest is allowed
5. पुनर्मूल्यांकन खाता है : 1
- (A) वास्तविक खाता (B) व्यक्तिगत खाता  
(C) नाममात्र खाता (D) सम्पत्ति खाता
- Revaluation Account is a :
- (A) Real Account (B) Personal Account  
(C) Nominal Account (D) Asset Account
6. जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है, तो इसे क्रेडिट किया जाएगा : 1
- (A) उसके पूँजी खाते में (B) त्याग करने वाले साझेदारों के पूँजी खातों में  
(C) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में (D) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में

When a new partner brings goodwill in cash, it is credited to :

- (A) His Capital A/c (B) Sacrificing Partners Capital A/c  
(C) Old Partners Capital A/c (D) All Partners Capital A/c

7. 'ए' तथा 'बी' लाभ-हानि को 4 : 1 के अनुपात में बाँटते हुए साझेदार हैं। 'ए' अपने हिस्से का  $\frac{1}{4}$  तथा 'बी' अपने हिस्से का  $\frac{1}{2}$  'सी' के पक्ष में त्याग करते हैं जो कि एक नया साझेदार है। सी का हिस्सा क्या होगा ? 1

- (A)  $\frac{3}{4}$  (B)  $\frac{1}{5}$   
(C)  $\frac{1}{10}$  (D)  $\frac{3}{10}$

'A' and 'B' are partners sharing profit and loss in the ratio of 4 : 1. 'A' surrenders  $\frac{1}{4}$  of his share and 'B' surrenders  $\frac{1}{2}$  of his share in favour of 'C', a new partner. What will be the 'C's share ?

- (A)  $\frac{3}{4}$  (B)  $\frac{1}{5}$   
(C)  $\frac{1}{10}$  (D)  $\frac{3}{10}$

8. जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता, तो उस राशि को डेबिट करेंगे : 1

- (A) रोकड़ खाते में (B) प्रीमियम खाते में  
(C) नये साझेदार के चालू खाते में (D) पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में

When new partner doesn't bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to :

- (A) Cash A/c (B) Premium A/c  
(C) Current A/c of new partner (D) Capital A/cs of old partners

9. किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है ? 1

(A) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In Gaining Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(B) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In New Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(C) Goodwill A/c Dr. (In Old Ratio)

To All Partner's Capital A/cs

(D) Goodwill A/c Dr. (In Old Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

How goodwill is recorded on the retirement of a Partner ?

(A) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In Gaining Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(B) Remaining Partner's Capital A/c Dr. (In New Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

(C) Goodwill A/c Dr. (In Old Ratio)

To All Partner's Capital A/cs

(D) Goodwill A/c Dr. (In Old Ratio)

To Retiring Partner's Capital A/c

10. 'ए', 'बी' और 'सी' साझेदार हैं जो 4 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। 'सी' अवकाश ग्रहण करता है। 'ए' और 'बी', 'सी' के हिस्से को बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा : 1

(A) 5 : 2 (B) 5 : 3

(C) 9 : 5 (D) 4 : 2

'A', 'B' and 'C' have been sharing profits in the ratio of 4 : 2 : 1. 'C' retires. 'A' and 'B' take 'C's share equally. New profit sharing ratio will be :

- (A) 5 : 2 (B) 5 : 3  
(C) 9 : 5 (D) 4 : 2

11. फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है :

1

- (A) पूँजी भुगतान (B) व्यय  
(C) पूँजी प्राप्ति (D) आय

For the firm interest on drawings is :

- (A) Capital Payment (B) Expenses  
(C) Capital Receipt (D) Income

12. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा :

1

- (A) 5% वार्षिक की दर से (B) 6% वार्षिक की दर से  
(C) 7.5% वार्षिक की दर से (D) 12% वार्षिक की दर से

In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan account will be :

- (A) @ 5% p.a. (B) @ 6% p.a.  
(C) @ 7.5% p.a. (D) @ 12% p.a.

13. साझेदारों की पूँजी परिवर्तनशील होने पर कौन-से खाते खोले जाते हैं ?

1

- (A) केवल पूँजी खाते (B) केवल चालू खाते  
(C) पूँजी खाते तथा चालू खाते (D) पूँजी खाते अथवा चालू खाते

Which accounts are opened when the capital are fluctuating ?

- (A) Only Capital Accounts  
 (B) Only Current Accounts  
 (C) Capital Accounts as well as Current Accounts  
 (D) Either Capital Accounts or Current Accounts

14. यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है, तो आहरण की कुल राशि पर ..... माह का ब्याज लगाया जाता है। 1

- (A) 12 (B)  $6\frac{1}{2}$   
 (C)  $5\frac{1}{2}$  (D) 6

If a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, interest on the total amount is charged for ..... months.

- (A) 12 (B)  $6\frac{1}{2}$   
 (C)  $5\frac{1}{2}$  (D) 6

15. 'ए' तथा 'बी' एक फर्म में लाभ-हानि को 2 : 1 में बाँटते हैं। 1 जनवरी, 2019 से वे लाभ हानियों को समान अनुपात में बाँटने को सहमत हुए। लाभ-हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक का लाभ प्राप्ति अथवा त्याग का हिस्सा होगा : 1

- (A) लाभ प्राप्ति 'अ'  $\frac{1}{6}$ , त्याग 'ब'  $\frac{1}{6}$  (B) त्याग 'अ'  $\frac{1}{6}$ , लाभ प्राप्ति 'ब'  $\frac{1}{6}$   
 (C) लाभ प्राप्ति 'अ'  $\frac{1}{2}$ , त्याग 'ब'  $\frac{1}{2}$  (D) त्याग 'अ'  $\frac{1}{2}$ , लाभ प्राप्ति 'ब'  $\frac{1}{2}$

'A' and 'B' were partners sharing profit and losses in the ratio of 2 : 1. With effect from 1st January, 2019, they agreed to share profits & losses equally. Individual partner's gain or sacrifice due to change will be :

- (A) Gain by 'A'  $\frac{1}{6}$ , Sacrifice by 'B'  $\frac{1}{6}$  (B) Sacrifice by 'A'  $\frac{1}{6}$ , Gain by 'B'  $\frac{1}{6}$   
 (C) Gain by 'A'  $\frac{1}{2}$ , Sacrifice by 'B'  $\frac{1}{2}$  (D) Sacrifice by 'A'  $\frac{1}{2}$ , Gain by 'B'  $\frac{1}{2}$

16. वर्तमान साझेदारों के सम्बन्धों में कोई भी परिवर्तन जिससे वर्तमान ठहराव समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव करना पड़ता है तो इसे कहा जाता है : 1

- (A) साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन (B) साझेदारी का पुनर्गठन  
(C) साझेदारी की वसूली (D) इनमें से कोई भी नहीं

Any change in the relationship of existing partners which results in an end of existing agreement and make a new agreement is called :

- (A) Revaluation of Partnership (B) Reconstitution of Partnership  
(C) Realization of Partnership (D) None of the above

**भाग - ब**

**PART - B**

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

**(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)**

17. विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति को कहा जाता है : 1

- (A) एकाकी व्यवसाय (B) साझेदारी फर्म  
(C) कम्पनी (D) उपरोक्त सभी

An artificial person created by Law is called :

- (A) Sole Tradership (B) Partnership Firm  
(C) Company (D) All of the above

18. कम्पनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं ? 1

- (A) सरकार (B) संचालक मंडल  
(C) समता अंशधारी (D) ऋणपत्रधारी

Who are the real owners of a Company ?

- (A) Government (B) Board of Directors  
(C) Equity shareholders (D) Debentureholders

19. अंशधारियों को कम्पनी से मिलता है : 1

- (A) ब्याज (B) कमीशन  
(C) लाभ (D) लाभांश



Shareholders receive from the Company :

- (A) Interest (B) Commission  
(C) Profit (D) Dividend

20. जो व्यक्ति कम्पनी की पूँजी में धन लगाता है उसे कहा जाता है : 1

- (A) लेनदार (B) विनियोजक  
(C) अंशधारी (D) ऋणदाता

A person who invests in the capital of a company is called :

- (A) Creditor (B) Investor  
(C) Shareholder (D) Lender

21. संचित पूँजी को निम्न नाम से भी पुकारा जाता है : 1

- (A) पूँजीगत संचय (B) मांगी गई पूँजी  
(C) प्रार्थित पूँजी (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Reserve Capital is also known by :

- (A) Capital Reserve (B) Called up Capital  
(C) Subscribed Capital (D) None of the above

22. जो व्यक्ति कम्पनी को आरम्भ करते हैं, उन्हें कहा जाता है : 1

- (A) अंशधारी (B) संचालक  
(C) प्रवर्तक (D) अंकेक्षक

Persons who start a company are called :

- (A) Shareholders (B) Directors  
(C) Promoters (D) Auditors

23. एक ऋणपत्रधारी अधिकारी होता है : 1

- (A) स्थिर लाभांश (B) लाभों में हिस्सा  
(C) कम्पनी में वोटिंग अधिकार (D) निश्चित दर से ब्याज

A debentureholder is entitled to :

- (A) Fixed Dividend (B) Share in Profits  
(C) Voting rights in a Company (D) Interest at fixed rate

**24.** कम्पनी के समापन पर ऋणपत्रों के मूलधन की वापसी होती है : 1

- (A) सबसे पहले (B) सबसे बाद में  
(C) समता अंश पूँजी से पहले (D) समता अंश पूँजी के बाद

On liquidation of a Company, principal amount of debenture is returned :

- (A) First of all (B) Last of all  
(C) Before equity capital (D) After equity capital

**25.** सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए ऋणपत्रों पर ब्याज दिया जाता है : 1

- (A) ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर (B) कोई ब्याज नहीं दिया जाता  
(C) ऋणपत्रों के छपे हुए मूल्य पर (D) ऋणपत्रों के चुकता मूल्य पर

Interest on debentures issued as collateral security is paid on :

- (A) Nominal value of debentures (B) No interest is paid  
(C) Face value of debentures (D) Paid up value of debentures

**26.** ऋणपत्रों का शोधन किया जा सकता है : 1

- (A) वार्षिक आहरण द्वारा (B) खुले बाजार में क्रय करके  
(C) परिवर्तन द्वारा (D) उपरोक्त सभी से

Debentures can be redeemed :

- (A) By annual drawings (B) By purchase in open market  
(C) By conversion (D) By all of the above

5608/(Set : C)/ II

27. सिंकिंग फण्ड विनियोगों का ब्याज क्रेडिट किया जाएगा :

1

- (A) लाभ-हानि विवरण में
- (B) सामान्य संचय खाते में
- (C) सिंकिंग फण्ड विनियोग खाते में
- (D) सिंकिंग फण्ड खाते में

Interest on Sinking Fund Investment will be credited to :

- (A) Statement of Profit & Loss
- (B) General Reserve Account
- (C) Sinking Fund Investment Account
- (D) Sinking Fund Account

28. ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता है :

1

- (A) व्यक्तिगत खाता
- (B) वास्तविक खाता
- (C) नाममात्र खाता
- (D) उपरोक्त सभी

Premium on redemption of debentures Account is :

- (A) Personal Account
- (B) Real Account
- (C) Nominal Account
- (D) All of the above

29. आरक्षित पूँजी है : 1

- (A) प्रदत्त पूँजी का भाग  
 (B) जब्त अंश पूँजी का भाग  
 (C) सम्पत्ति का भाग  
 (D) कम्पनी के समापन पर माँगे जाने वाली पूँजी का भाग

Reserve Capital is a part of :

- (A) Paid up Capital  
 (B) Forfeited Share Capital  
 (C) Assets  
 (D) Capital to be called up only on liquidation of Company

30. एक कम्पनी का पूर्वाधिकार अंश प्रतिनिधित्व करता है : 1

- (A) ऋण का (B) पूँजी का  
 (C) लाभांश का (D) सम्पत्ति का

Preference share of a company represents :

- (A) Loan (B) Capital  
 (C) Dividend (D) Assets

भाग - स

**PART - C**

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

**(Computerized Accounting)**

17. .... एक सम्पत्ति है जो एक इकाई की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करती है। 1

- (A) ई आर डायग्राम (B) स्तंभ  
 (C) संबंध (D) एट्रीब्यूट

..... is a property that describes various characteristics of an entity.

- (A) ER Diagram (B) Column  
 (C) Relationship (D) Attribute

5608/(Set : C)/ II

18. .... स्तर बताता है कि डेटा कौन-सा डेटा डेटाबेस में संग्रहित है और उनके बीच क्या संबंध है। 1

- (A) शारीरिक स्तर (B) लॉजिकल स्तर  
(C) वैचारिक स्तर (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

..... level describes what data is stored in the database and relationship among the data ?

- (A) Physical Level (B) Logical Level  
(C) Conceptual Level (D) None of these

19. .... व्युत्पन्न विशेषताएँ बताता है। 1

- (A) डबल दीर्घवृत्त  
(B) डैशड दीर्घवृत्त  
(C) स्क्वायर्ड दीर्घवृत्त  
(D) विशेषता नाम के साथ दीर्घवृत्त

..... denote derived attributes.

- (A) Double ellipse  
(B) Dashed ellipse  
(C) Squared ellipse  
(D) Ellipse with attribute name

20. .... न्यूनतम सुपर कुंजी है। 1

- (A) प्राथमिक कुंजी (B) उम्मीदवार कुंजी  
(C) अद्वितीय कुंजी (D) वैकल्पिक कुंजी

..... is the minimal super key.

- (A) Primary Key (B) Candidate Key  
(C) Unique Key (D) Alternate Key

21. .... डिस्क भंडारण पर स्थान के आबंटन का प्रबन्ध करता है। 1

- (A) डिस्क मैनेजर (B) फाइल मैनेजर  
(C) मेमोरी मैनेजर (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

..... manages the allocation of the space on the disk storage.

- (A) Disk Manager (B) File Manager  
(C) Memory Manager (D) None of the above

22. विदेशी कुंजी शून्य हो सकती है। (सत्य/असत्य) 1

Foreign Key can be null. (True/False)

23. संबंधपरक मॉडल का उपयोग करके हम अवधारणा वैचारिक डेटाबेस डिजाइन तैयार कर सकते हैं। 1

(सत्य/असत्य)

Using relational model we design conceptual database design. (True/False)

24. तालिकाओं में कम से कम एक स्तंभ होना आवश्यक है। (सत्य/असत्य) 1

Tables are required to have at least one column. (True/False)

25. उम्पीदवार कुंजी शून्य हो सकती है। (सत्य/असत्य) 1

Candidate Key can have a null value. (True/False)

26. सॉफ्टवेयर ..... के लिए आसान होना चाहिए। 1

- (A) स्थापित करने (B) अनुकूलन  
(C) समझने में (D) इनमें से सभी

A Software must be easy to .....

- (A) Install (B) Adapt  
(C) Understand (D) All of the above

27. टेलर मेड सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हैं ? 1

- (A) बने-बनाए सॉफ्टवेयर हैं (B) कम लागत के हैं  
(C) डाटा की उच्च सुरक्षा है (D) इनमें से कोई नहीं

What is the advantage of Tailor made Software ?

- (A) These are ready-made software (B) Low cost  
(C) High secrecy of data (D) None of the above

28. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की क्या विशेषताएँ हैं ? 1

- (A) डाटा को स्टोर करना  
(B) जल्दी रिपोर्ट तैयार करना  
(C) विभिन्न खातों का समूह  
(D) उपरोक्त सभी

What are the features of Computerized Accounting System ?

- (A) Storage of accounting data  
(B) Instantly produces different reports  
(C) Group of different accounts  
(D) All of the above

29. लेखांकन सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाने के लिए किन तत्त्वों पर ध्यान दिया जाता है ? 1

- (A) लचीलापन (B) अनुकूलता  
(C) प्रबंधन का विश्वास (D) (A) और (B) दोनों

What are the factors to be considered while using accounting software ?

- (A) Flexibility (B) Adaptability  
(C) Interest of Management (D) Both (A) and (B)

30. डाटा है :

1

(A) सूचना

(B) तथ्यों का समूह

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं


Data is :

(A) Information

(B) Collection of facts

(C) Both (A) and (B)

(D) None of these





CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : D**

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - I

PART - I

(आत्मनिष्ठ प्रश्न)

(Subjective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

समय : 2½ घण्टे]

[ पूर्णांक : 60 (भाग-I : 30, भाग-II : 30)

Time allowed : 2½ hours ]

[ Maximum Marks : 60 (Part-I : 30, Part-II : 30)

प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है : भाग-I (आत्मनिष्ठ) एवं भाग-II (वस्तुनिष्ठ)। परीक्षार्थी को दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न-पत्र का भाग-I परीक्षा आरम्भ होने पर पहले उत्तर-पुस्तिका के साथ दिया जाएगा तथा भाग-II के लिए आखिरी का एक घंटे का समय दिया जाएगा अर्थात् परीक्षा समाप्त होने से एक घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग-II का प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

भाग-I के प्रश्न-पत्र में कुल 19 (5 + 7 + 7) प्रश्न एवं भाग-II के प्रश्न-पत्र में कुल 44 (16 + 14 + 14) प्रश्न हैं।

Question paper is divided into two Parts : Part-I (Subjective type) and Part-II (Objective type). Answer the questions of both parts in your answer-book. Part-I of question paper with answer-book will be provided with starting of Examination and last one hour of Examination will be given for Part-II i.e. question paper of Part-II will be provided before one hour of the end of Examination.

Total questions in question paper of Part-I are 19 (5 + 7 + 7) and of Part-II are 44 (16 + 14 + 14).

• कृपया जाँच कर लें कि भाग-I के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 19 (5 + 7 + 7) हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-I** are 8 in number and it contains 19 (5 + 7 + 7) questions.

5608/(Set : D)/ I

P. T. O.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर तथा सेट को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।  
The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।  
Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/ पन्ने न छोड़ें।  
Don't leave blank page/pages in your answer-book.
- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।  
Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.
- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write their Roll Number on the question paper.
- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**

#### सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग - स : कम्प्यूटरकृत लेखांकन।
- (ii) भाग - अ अनिवार्य है। परीक्षार्थी अपनी इच्छा से भाग - ब तथा भाग - स में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या 5 में आन्तरिक छूट उपलब्ध है।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part – A** : Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.  
**Part – B** : Company Accounts & Analysis of Financial Statements.  
**Part – C** : Computerized Accounting.
- (ii) **Part – A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part – B** and **Part – C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Marks of each question are indicated against it.
- (iv) Internal choice is available in Question No. 5.

भाग – अ

PART – A

(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)

(Not for Profit Organizations &amp; Partnership Accounts)

1. प्राप्ति व भुगतान खाते व आय व व्यय खाते में कोई **चार** अंतर लिखिए। 2  
 Give any **four** points of distinction between Receipts and Payment Account and Income and Expenditure Account.
2. स्पोर्ट्स क्लब ने वर्ष 2011-12 में 80,000 रु० चन्दे के प्राप्त किए। अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :  
 (i) 1-4-2011 को बकाया चन्दा 5,200 रु०।  
 (ii) 1-4-2011 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 2,400 रु०।  
 (iii) 31-3-2012 को बकाया चन्दा 4,800 रु०।  
 (iv) 31-3-2012 को अग्रिम प्राप्त चन्दा 700 रु०।  
 आय-व्यय खाते में चन्दे की कितनी राशि क्रेडिट की जायेगी ? 2  
 Sports Club had received ₹ 80,000 as subscription in 2011-12. Further information is :  
 (i) Subscription due but not received on 1-4-2011 ₹ 5,200.  
 (ii) Subscription received in advance on 1-4-2011 ₹ 2,400.  
 (iii) Subscription due but not received on 31-3-2012 ₹ 4,800.  
 (iv) Subscription received in advance on 31-3-2012 ₹ 700.  
 What amount should be credited to Income and Expenditure Account as subscription ?

3. 'स्थायी पूँजी' व 'चालू पूँजी' खातों में अंतर बताइए। 2

Distinguish between 'Fixed Capital' and 'Fluctuating Capital' Accounts.

4. 1-4-2018 को एक फर्म की सम्पत्तियाँ 75,000 रु० थी जिसमें 5,000 रु० रोकड़ के शामिल हैं। साझेदारों के पूँजी खाते का शेष 60,000 रु० है और बाकी रिजर्व का गठन किया गया है। आय की सामान्य दर 10% है। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के सुपर लाभ के आधार पर 24,000 रु० मूल्यांकित की गई। फर्म का औसत लाभ क्या होगा ? 2

On 1-4-2018 firm had assets of ₹ 75,000 including cash ₹ 5,000. The partners Capital Account showed a balance of ₹ 60,000 and reserve constituted the rest. Normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at ₹ 24,000 at 4 years purchase of superprofits, find the average profits of the firm.

5. 'अ' व 'ब' साझेदार लाभ को 3 : 1 में बाँटते हैं जिनका स्थिति विवरण 31-3-18 को निम्न प्रकार था :

दायित्व	रु०	परिसम्पत्ति	रु०
लेनदार	4,15,000	बैंक में नकद	2,65,000
रिजर्व फण्ड	40,000	प्राप्य बिल	30,000
पूँजी खाता :		देनदार	1,60,000
'अ'	3,00,000	स्टॉक	2,00,000
'ब'	1,60,000	फिक्सचर्स	10,000
		भूमि एवं भवन	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

1 अप्रैल, 2018 को 'स' को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया गया :

- (a) 'स' ने ₹ 1,00,000 पूँजी व ₹ 50,000 ख्याति के रूप में भुगतान किया, जिसमें से ख्याति का 1/2 भाग 'अ' व 'ब' द्वारा निकाल लिया गया है ।
- (b) स्टॉक व फिक्सचर को 10% से कम किया गया व 5% प्रावधान डूबत ऋण के लिए देनदार व प्राप्य बिलों पर बनाया गया।
- (c) भूमि व भवन 20% से बढ़ गया है।
- (d) ₹ 10,000 का एक दायित्व है जोकि क्षति के भुगतान के लिए किया गया।
- (e) ₹ 6,500 की एक मद जोकि लेनदारों में शामिल है। वह नहीं माँगी जाएगी और उसको खारिज किया गया।

आवश्यक खाते बनाइए व स्थिति विवरण बनाइए।

6

'A' and 'B' share profits in 3 : 1. Their Balance Sheet as at March 31, 2018 was as follows :

<b>Liabilities</b>	<b>Rs.</b>	<b>Assets</b>	<b>Rs.</b>
Creditors	4,15,000	Cash at Bank	2,65,000
Reserve Fund	40,000	Bills Receivable	30,000
Capital Account :		Debtors	1,60,000
'A'	3,00,000	Stock	2,00,000
'B'	1,60,000	Fixtures	10,000
		Land and Building	2,50,000
	9,15,000		9,15,000

On April 1, 2018 'C' was admitted into partnership for 1/4 share on the following terms :

- 'C' pays ₹ 1,00,000 as his capital and ₹ 50,000 for Goodwill. Half of which is to be withdrawn by 'A' and 'B'.
- Stock and Fixture be reduced by 10% and 5% provision for doubtful debts be created on Debtors and Bill Receivable.
- Value of land and building be increased by 20%.
- A liability to the extent of ₹ 10,000 should be created as a claim for damages.
- An item of ₹ 6,500 included in creditors is not likely to be claimed and should be written back.

Prepare necessary Accounts and prepare Balance Sheet.

अथवा

OR

साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है ?  
काल्पनिक मदों की सहायता से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। 6

Why are assets and liabilities revalued at the time of retirement of a Partner ?  
Prepare Revaluation Account with the help of an example by taking imaginary figures.

भाग - ब

PART - B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

**(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)**

6. अंशों के हरण करने की जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया हो : (i) प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया, (ii) प्रीमियम प्राप्त किया गया। 2

Write journal entries of Share Forfeiture when the shares have been issued at premium and when the amount of premium : (i) not received, (ii) received.

7. किंग लि० ने क्वीन लि० की सम्पत्तियाँ ₹ 25,00,000 और दायित्व ₹ 6,00,000 के लिए क्रय प्रतिफल के रूप में 10,000 समता अंश ₹ 100 प्रति अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। और ₹ 11,00,000 बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किए गए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2

King Ltd. took over assets of ₹ 25,00,000 and liabilities of ₹ 6,00,000 of Queen Ltd. King Ltd. paid the purchase consideration by issuing 10,000 Equity Shares of ₹ 100 each at a premium of 10% and ₹ 11,00,000 by Bank Draft. Pass journal entries.

8. 'निजी कम्पनी' व 'सार्वजनिक कम्पनी' में क्या अंतर है ? 2

What is the difference between 'Private Company' and 'Public Company' ?

9. 'A' लि० कम्पनी ने 'B' लि० कम्पनी से ₹ 5,40,000 की सम्पत्ति का क्रय किया। 'A' लि० ने 10% ऋणपत्र ₹ 100 प्रति ऋणपत्र का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया। जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2  
 'A' Ltd. Co. purchased assets from 'B' Ltd. Co. for ₹ 5,40,000. 'A' Ltd. issued 10% debenture of ₹ 100 each at 20% premium. Pass journal entries.
10. 'B' लि० ने 635, 9% ऋणपत्र ₹ 500 प्रति ऋणपत्र से निर्गमित किए। जर्नल प्रविष्टियाँ करें यदि ऋणपत्रों का निर्गमन 5% छूट पर, और शोधन 10% प्रीमियम पर किया हो। 2  
 'B' Ltd. issued 635, 9% debentures of ₹ 500 each. Pass necessary journal entries if debentures were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium.
11. 'संचित पूँजी' व 'पूँजीगत संचय' में क्या अंतर है ? 2  
 State the differences between 'Reserve Capital' and 'Capital Reserve'.
12. (a) 'Y' लि० ने 300 अंश ₹ 10 प्रति अंश मँगाए गए, ₹ 7 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 2 के भुगतान न होने पर कर लिया। इनमें से 100 अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 6 प्रति अंश में कर दिया गया।  
 पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2
- (b) 'Z' लि० ने 600 अंशों ₹ 10 प्रति अंश का हरण, पहली याचना ₹ 3 प्रति अंश का भुगतान न कर पाने के कारण किया, दूसरी याचना ₹ 2 प्रति अंश अभी नहीं मँगाई गई थी। इनमें से 200 अंश ₹ 8 प्रति अंश पूर्णदत्त को ₹ 7 प्रति अंश में पुनः निर्गमित कर दिया गया।  
 पुनः निर्गमित अंशों व जब्ती के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करें। 2
- (a) 'Y' Ltd. forfeited 300 shares of ₹ 10 each, ₹ 7 called up, for non-payment of Ist call of ₹ 2 per share. Out of these, 100 shares were immediately re-issued at ₹ 6 per share.  
 Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.
- (b) Z Ltd. forfeited 600 shares of ₹ 10 on which Ist call of ₹ 3 per share was not received, the IInd call of ₹ 2 per share has not yet been called. Out of these, 200 shares were reissued as ₹ 8 paid up for ₹ 7 per share.  
 Pass the necessary journal entries for forfeiture and reissue of Shares.

( 8 )

5608/(Set : D)

भाग - स

PART - C

(कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

(Computerized Accounting)

6. GUI पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 2  
Write a short note on GUI (Graphical User Interface).
7. MS-Access के **दो** अवयव लिखें। 2  
Give **two** components of MS-Access.
8. स्प्रेडशीट की **दो** विशेषताएँ बताइए। 2  
Give **two** features of Electronic Spreadsheet.
9. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? 2  
What do you mean by Computerized Accounting ?
10. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन की **दो** विशेषताएँ बताइए। 2  
Write **two** features of Computerized Accounting System.
11. निदेशात्मक अखंडता क्या है ? 2  
What is Referential Integrity ?
12. क्वेरी क्या है ? क्वेरी बनाने की विभिन्न विधियाँ बताइए। 4  
What is Query ? Describe the various methods of creating Query.

5608/(Set : D)/ I



CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5608

Series : SS-April/2022

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SET : D**

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

भाग - II

PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- 
- कृपया जाँच कर लें कि **भाग-II** के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **16** तथा प्रश्न **44 (16 + 14 + 14)** हैं।  
*Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-II** are **16** in number and it contains **44 (16 + 14 + 14)** questions.*
  - परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।  
*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*
  - कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***
- 

सामान्य निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभाजित है :  
भाग - अ : अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते।  
भाग - ब : कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।  
भाग - स : कम्प्यूटरिकृत लेखांकन।

5608/(Set : D)/ II

P. T. O.

- (ii) **भाग - अ अनिवार्य है।** परीक्षार्थी अपनी इच्छा से **भाग - ब** तथा **भाग - स** में से कोई एक भाग हल करें।
- (iii) **सभी प्रश्न हल करने हैं।** प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

**General Instructions :**

- (i) This question paper is divided into **three** Parts :
- Part - A :** Not for Profit Organizations & Partnership Accounts.
- Part - B :** Company Accounts & Analysis of Financial Statements.
- Part - C :** Computerized Accounting.
- (ii) **Part - A is compulsory.** Candidates have to attempt any **one** part from **Part - B** and **Part - C** of their choice.
- (iii) **All** questions are to be attempted. Each question carries **1** mark. Write the **correct** answer in your answer-book.

**भाग - अ**

**PART - A**

**(अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते)**

**(Not for Profit Organizations & Partnership Accounts)**

1. प्राप्ति और भुगतान खाता प्रायः प्रदर्शित करता है : 1
- (A) डेबिट शेष (B) क्रेडिट शेष
- (C) आधिक्य या कमी (D) पूँजी निधि
- Receipts and Payments Account generally shows :
- (A) A Debit Balance (B) A Credit Balance
- (C) Surplus or Deficit (D) Capital Fund
2. निम्न में से कौन-सा पूँजीगत प्राप्ति है ? 1
- (A) आजीवन सदस्यता शुल्क (B) दान
- (C) चन्दा (D) विनियोगों पर ब्याज
- Which of the following represent Capital Receipt ?
- (A) Life Membership Subscription (B) Donation
- (C) Subscription (D) Interest on Investment

3. साझेदार का फर्म से सम्बन्ध होता है :

1

- (A) स्वामी का (B) एजेन्ट का  
(C) स्वामी एवं एजेन्ट का (D) प्रबन्धक का

The relation of partner with the firm is that of :

- (A) An owner (B) An Agent  
(C) An owner and an Agent (D) Manager

4. साझेदारी संलेख बनाना :

1

- (A) अनिवार्य है  
(B) लिखित में अनिवार्य है  
(C) अनिवार्य नहीं है  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Forming of Partnership Deed is :

- (A) Mandatory  
(B) Mandatory in writing  
(C) Not mandatory  
(D) None of the above

5. त्याग अनुपात :

1

- (A) नया अनुपात – पुराना अनुपात (B) पुराना अनुपात – नया अनुपात  
(C) पुराना अनुपात – लाभ प्राप्ति अनुपात (D) लाभ प्राप्ति अनुपात – पुराना अनुपात

Sacrificing Ratio :

- (A) New Ratio – Old Ratio (B) Old Ratio – New Ratio  
(C) Old Ratio – Gaining Ratio (D) Gaining Ratio – Old Ratio

6. किसी नये साझेदार को साझेदारी में सम्मिलित किया जा सकता है :

1

- (A) किसी भी एक साझेदार की सहमति से  
 (B) साझेदारों के बहुमत की सहमति से  
 (C) सभी पुराने साझेदारों की सहमति से  
 (D) पुराने साझेदारों के  $\frac{2}{3}$  साझेदारों की सहमति से

A new partner may be admitted into partnership :

- (A) with the consent of any one partner  
 (B) with the consent of majority of partners  
 (C) with the consent of all old partners  
 (D) with the consent of  $\frac{2}{3}$  of old partners

7. 'एक्स' तथा 'वाई' 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। 'जेड' को  $\frac{1}{4}$  भाग देकर साझेदार बनाया गया जो अपना हिस्सा 'एक्स' तथा 'वाई' से बराबर-बराबर प्राप्त करता है। नया अनुपात होगा :

1

- (A) 9 : 6 : 5  
 (B) 19 : 11 : 10  
 (C) 3 : 3 : 2  
 (D) 3 : 2 : 4

'X' and 'Y' are partners sharing profit in the ratio of 3 : 2. 'Z' was admitted with  $\frac{1}{4}$  share in profits which he acquire equally from 'X' and 'Y'. The new ratio will be :

- (A) 9 : 6 : 5  
 (B) 19 : 11 : 10  
 (C) 3 : 3 : 2  
 (D) 3 : 2 : 4

8. यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है, तो उसे बाँटा जाएगा :

1

- (A) त्याग अनुपात में  
 (B) पुराने लाभ अनुपात में  
 (C) नए लाभ अनुपात में  
 (D) पूँजी अनुपात में

If the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in :

- (A) Sacrificing Ratio (B) Old profit sharing ratio  
(C) New profit sharing ratio (D) In capital ratio

9. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूँजी खाते में क्रेडिट की जाएगी ? 1

- (A) अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के (B) शेष साझेदारों के  
(C) सभी साझेदारों के (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

On retirement of a partner, goodwill will be credited to the Capital Account of :

- (A) Retiring Partner (B) Remaining Partners  
(C) All Partners (D) None of the above

10. 'अ', 'ब' व 'स' 4 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। यदि 'अ' के अवकाश ग्रहण करने पर 'ब' व 'स' का नया अनुपात 3 : 1 है, तो लाभ प्राप्ति अनुपात होगा : 1

- (A) 3 : 13 (B) 13 : 3  
(C) 3 : 1 (D) 12 : 5

'A', 'B' and 'C' are partners sharing profit in the ratio of 4 : 2 : 1. If the new ratio of 'B' and 'C' is 3 : 1 on the retirement of 'A', then what will be the gaining ratio ?

- (A) 3 : 13 (B) 13 : 3  
(C) 3 : 1 (D) 12 : 5

11. साझेदारों की पूँजी स्थायी होने पर कौन-से खाते खोले जाते हैं ? 1

- (A) केवल पूँजी खाते (B) केवल चालू खाते  
(C) पूँजी खाते तथा चालू खाते (D) पूँजी खाते अथवा चालू खाते

Which accounts are opened when the capital are fixed ?

- (A) Only Capital Accounts
- (B) Only Current Accounts
- (C) Capital Accounts as well as Current Accounts
- (D) Either Capital Accounts or Current Accounts

12. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज डेबिट किया जाएगा :

1

- (A) लाभ-हानि खाते में
- (B) लाभ-हानि समायोजन खाते में
- (C) ब्याज खाते में
- (D) पूँजी खातों में

Interest on partner's capitals will be credited to :

- (A) Profit and Loss Account
- (B) Profit and Loss Appropriation Account
- (C) Interest Account
- (D) Partner's Capital Accounts

13. 1 मार्च, 2019 को एक साझेदार ने फर्म में ₹ 50,000 की अतिरिक्त पूँजी लगायी। साझेदारी संलेख के अभाव में 31-12-2019 को उसे ब्याज मिलेगा :

1

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) ₹ 3,000 | (B) शून्य   |
| (C) ₹ 2,500 | (D) ₹ 1,800 |

On 1st March, 2019 a partner introduced in the firm additional capital of ₹ 50,000. In the absence of partnership deed, on 31st December, 2019 he will receive interest :

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) ₹ 3,000 | (B) zero    |
| (C) ₹ 2,500 | (D) ₹ 1,800 |

14. यदि साझेदारों के आहरण की तिथि न दी हुई हो, तो कितने समय का ब्याज लगाया जाता है ? 1

- (A) 1 माह का  
 (B) 3 माह का  
 (C) 6 माह का  
 (D) 12 माह का

If date of drawings of the partner's is not given in the question, interest is charged for how much time ?

- (A) 1 month  
 (B) 3 months  
 (C) 6 months  
 (D) 12 months

15. 'ए' तथा 'बी' लाभ-हानि को समान बाँटते हैं। 1 अप्रैल, 2010 से वे लाभ-हानि को 4 : 3 के अनुपात में बाँटने पर सहमत हुए। लाभ विभाजन में परिवर्तन के कारण 'बी' का लाभ प्राप्ति अथवा त्याग का हिस्सा होगा : 1

- (A) लाभ प्राप्ति  $\frac{1}{14}$  (B) त्याग  $\frac{1}{14}$   
 (C) लाभ प्राप्ति  $\frac{4}{7}$  (D) त्याग  $\frac{3}{7}$

'A' and 'B' were partners sharing profits or losses equally. With effect from 1st April, 2010 they agreed to share profit in the ratio of 4 : 3. Due to change in profit sharing ratio, B's gain or sacrifice will be :

- (A) Gain  $\frac{1}{14}$  (B) Sacrifice  $\frac{1}{14}$   
 (C) Gain  $\frac{4}{7}$  (D) Sacrifice  $\frac{3}{7}$

16. एक फर्म द्वारा कमाये गए पिछले पाँच वर्षों के लाभ एवं हानि इस प्रकार है : ₹ 12,000; ₹ 13,000; ₹ 14,000; ₹ 18,000 और ₹ 2,000 (हानि)। दो वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा : 1
- (A) ₹ 23,600 (B) ₹ 22,000  
(C) ₹ 1,10,000 (D) ₹ 1,18,000

The profits earned by a business over the last 5 years are as follows : ₹ 12,000; ₹ 13,000; ₹ 14,000; ₹ 18,000 and ₹ 2,000 (loss). Based on 2 years purchase of last 5 years profit, value of goodwill will be :

- (A) ₹ 23,600 (B) ₹ 22,000  
(C) ₹ 1,10,000 (D) ₹ 1,18,000

भाग – ब

PART – B

(कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

(Company Accounts & Analysis of Financial Statements)

17. एक कम्पनी का ..... होता है। 1
- (A) पृथक वैधानिक अस्तित्व (B) स्थायी जीवन  
(C) सीमित दायित्व (D) उपरोक्त सभी
- A company has ..... .
- (A) Separate legal entity (B) Perpetual existence  
(C) Limited liability (D) All of the above
18. एक कम्पनी का निर्माण किया जाता है : 1
- (A) संसद के विशेष अधिनियम द्वारा (B) कम्पनी अधिनियम द्वारा  
(C) विनियोजकों द्वारा (D) सदस्यों द्वारा
- A company is created by :
- (A) Special act of Parliament (B) Companies Act  
(C) Investors (D) Members



19. कम्पनी की पूँजी कुछ इकाइयों में विभक्त होती है, जिसे कहा जाता है : 1

- (A) ऋणपत्र (B) अंश  
(C) स्टॉक (D) बाण्ड

Capital of a company is divided in units, which is called :

- (A) Debenture (B) Share  
(C) Stock (D) Bond

20. कम्पनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है ? 1

- (A) समता अंशधारियों को (B) पूर्वाधिकार अंशधारियों को  
(C) ऋणपत्रधारियों को (D) प्रवर्तकों को

To whom dividend is given at a fixed rate in a company ?

- (A) To Equity Shareholders (B) To Preference Shareholders  
(C) To Debentureholders (D) To Promoters

21. संचित पूँजी निम्न का भाग होती है : 1

- (A) माँगी गई पूँजी (B) चुकता पूँजी  
(C) पूँजी संचय (D) न माँगी गई पूँजी

Reserve Capital is a part of :

- (A) Called up Capital (B) Paid up Capital  
(C) Capital Reserve (D) Uncalled Capital

22. कम्पनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का ..... निर्धारित कर दी गई है। 1

- (A) 25% (B) 50%  
(C) 90% (D) 100%

According to Companies Act, Minimum subscription has been fixed at ..... of the issued amount.

- (A) 25% (B) 50%  
(C) 90% (D) 100%

23. ऋणपत्रधारी कम्पनी के ..... होते हैं।

1

- (A) स्वामी (B) ग्राहक  
(C) लेनदार (D) प्रवर्तक

Debentureholders are ..... of the Company.

- (A) Owners (B) Customers  
(C) Creditors (D) Promoters

24. ऋणपत्र प्रदर्शित करते हैं :

1

- (A) कम्पनी के दीर्घकालीन ऋण  
(B) समता अंशधारियों के विनियोग  
(C) कम्पनी में संचालकों के अंश  
(D) कम्पनी के अल्पकालीन ऋण

Debentures represent the :

- (A) Long term borrowings of a Company  
(B) Investments of Equity Shareholders  
(C) Directors shares in a Company  
(D) Short term borrowings of a Company

25. कम्पनी के ऋणपत्रों को निर्गमित किया जा सकता है : 1

- (A) नकदी के बदले (B) बिना नकद प्रतिफल के  
(C) सहायक प्रतिभूति के रूप में (D) उपरोक्त कोई भी

Debentures of a company can be issued :

- (A) For Cash (B) For consideration other than cash  
(C) As a collateral security (D) Any of the above

26. ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है ? 1

- (A) पूँजी संचय खाता (B) सामान्य संचय खाता  
(C) सिंकिंग फण्ड खाता (D) लाभ-हानि विवरण

Profit on redemption of debentures is transferred to which account ?

- (A) Capital Reserve Account (B) General Reserve Account  
(C) Sinking Fund Account (D) Statement of Profit & Loss

27. सिंकिंग फण्ड खाता का शेष हमेशा प्रदर्शित करता है : 1

- (A) डेबिट शेष (B) क्रेडिट शेष  
(C) न डेबिट न क्रेडिट शेष (D) डेबिट या क्रेडिट शेष

Balance of Sinking Fund Account always shows :

- (A) Debit Balance (B) Credit Balance  
(C) Neither Debit nor Credit Balance (D) Either Debit or Credit Balance

28. ऋणपत्र शोधन पर प्रीमियम ..... खाता है। 1

- (A) सम्पत्ति (B) दायित्व  
(C) व्यय (D) आय

Premium on redemption of Debentures Account is :

- (A) Asset (B) Liability  
(C) Expenses (D) Income

29. निम्न में से कौन-सा कथन **सत्य** है ?

1

- (A) अधिकृत पूँजी = निर्गमित पूँजी  
(B) अधिकृत पूँजी > निर्गमित पूँजी  
(C) चुकता पूँजी > निर्गमित पूँजी  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following statements is **true** ?

- (A) Authorized Capital = Issued Capital  
(B) Authorized Capital > Issued Capital  
(C) Paid up Capital > Issued Capital  
(D) None of the above

30. एक कम्पनी की अधिकृत पूँजी का उल्लेख होता है :

1

- (A) पार्षद सीमानियम में (B) पार्षद अन्तर्नियम में  
(C) प्रविवरण में (D) स्थानापन्न प्रविवरण में

Authorised capital of a company is mentioned in :

- (A) Memorandum of Association (B) Articles of Association  
(C) Prospectus (D) Statement in lieu of prospectus

## भाग - स

## PART - C

## (कम्प्यूटरीकृत लेखांकन)

## (Computerized Accounting)

17. अकाउंटिंग पैकेज किस आधार पर विकसित किये जाते हैं ? 1

- (A) लेखा अवधारणा (B) लेखा परिपाटियाँ  
(C) (A) और (B) दोनों (D) उपरोक्त में कोई भी नहीं

Accounting Packages are developed on the basis of :

- (A) Accounting Concepts (B) Accounting Conventions  
(C) Both (A) and (B) (D) None of the above

18. अकाउंटिंग पैकेज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ? 1

- (A) सिस्टम सॉफ्टवेयर (B) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर  
(C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (D) बेसिक

What type of software is an accounting package ?

- (A) System Software (B) Application Software  
(C) Utility Software (D) Basic

19. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के घटक हैं : 1

- (A) डेटा, रिपोर्ट, खाता बही, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर  
(B) सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लोग, प्रक्रिया  
(C) डेटा, कोडिंग, प्रक्रिया, उद्देश्य, आउटपुट  
(D) लोग, प्रक्रिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर

The components of computerized accounting system are :

- (A) Data, Report, Ledger, Software, Hardware
- (B) Software, Hardware, People, Procedure
- (C) Data, Coding, Procedure, Objective, Output
- (D) People, Procedure, Hardware, Software

20. खातों का समूहन से तात्पर्य डेटा के वर्गीकरण से है : 1

- (A) सम्पत्तियाँ, पूँजी और देनदारियाँ
- (B) पूँजी, सम्पत्तियाँ, देनदारियाँ, आय और व्यय
- (C) सम्पत्तियाँ, इक्विटी, आय और व्यय
- (D) पूँजी, देनदारियाँ, आय और व्यय

Grouping of Accounts means the classification of data from :

- (A) Assets, Capital and Liabilities
- (B) Capital, Assets, Liabilities, Revenue & Expenses
- (C) Assets, Equity, Revenue & Expenses
- (D) Capital, Liabilities, Revenue & Expenses

21. विषम को चुनें : 1

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| (A) पासवर्ड सिक्योरिटी | (B) डेटा ऑडिट  |
| (C) डेटा बैंक          | (D) डेटा वॉल्ट |

Choose the odd one out :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| (A) Password Security | (B) Data Audit |
| (C) Data Bank         | (D) Data Vault |

22. डेटा विश्लेषण डेटा वेयरहाउस का एक उपकरण है। (सत्य/असत्य) 1

Data analysis is a tool of data warehouse. (True/False)

23. चरणबद्ध दृष्टिकोण में वर्तमान प्रणाली प्रस्तावित प्रणाली के बाद निष्पादित होती है। (सत्य/असत्य) 1  
In phased approach the current system is executed after the proposed system.  
(True/False)
24. क्लास उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार हैं। (सत्य/असत्य) 1  
Classes are user defined data types. (True/False)
25. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा के बजाय प्रक्रिया पर जोर देती है। (सत्य/असत्य) 1  
Object Oriented programming emphasizes on procedure rather than on data.  
(True/False)
26. निम्नलिखित विधियों में से एक सेल में डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल **नहीं** किया जा सकता है : 1  
(A) एक तीर कुंजी दबाना (B) टैब कुंजी को दबाना  
(C) ESC कुंजी दबाना (D) उपरोक्त में से कोई नहीं  
Which of the following methods can **not** be used to enter data in a cell ?  
(A) Pressing an arrow key (B) Pressing the tab key  
(C) Pressing the ESC key (D) None of the above
27. वर्कशीट बनाने में निम्नलिखित में से कौन-सा एक बुनियादी कदम **नहीं** है ? 1  
(A) वर्कबुक सेव करें (B) वर्कशीट को संशोधित करें  
(C) टेक्स्ट और डेटा डालें (D) वर्कशीट कॉपी करें  
Which of the following is **not** a basic step in creating a worksheet ?  
(A) Save workbook (B) Modify the worksheet  
(C) Enter text and data (D) Copy the worksheet
28. सेलों में रखी गई टिप्पणियों को कहते हैं : 1  
(A) स्मार्ट टिप (B) सेल टिप  
(C) वेब टिप (D) नरम टिप

Comments put in cells are called :

- (A) Smart tip (B) Cell tip  
(C) Web tip (D) Soft tip

29. एक सूत्र का उपयोग करके एकाधिक गणना की जा सकती है : 1

- (A) मानक सूत्र (B) सरणी सूत्र  
(C) स्मार्ट सूत्र (D) जटिल सूत्र

Multiple calculations can be made in a single formula using :

- (A) Standard formula (B) Array formula  
(C) Smart formula (D) Complex formula

30. हाइपरलिंक कर सकते हैं : 1

- (A) पाठ (B) ड्राइंग वस्तुएँ  
(C) चित्र (D) उपरोक्त सभी

Hyperlink can be :

- (A) Text (B) Drawing objects  
(C) Pictures (D) All of the above